



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 14—अगस्त 20, 2010 (श्रावण 23, 1932)
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 14—AUGUST 20, 2010 (SARVANA 23, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110101, दिनांक 26 जुलाई 2010

सं. ए-22017/1/2009-पीएमई--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रिंसिपल स्टॉफ ऑफिसर श्री डी. बालानुजन को दिनांक 1 जुलाई, 2010 (पूर्वाह्न) से प्रधान मंत्री के निजी स्टाफ में 8,700/- रुपए के ग्रेड-पे के साथ पे-बैंड-4 (37,400--67,000/- रुपए) में विशेष कार्याधिकारी नियुक्त करती हैं।

2. श्री डी. बालानुजन, विशेष कार्याधिकारी की प्रधान मंत्री के निजी स्टाफ में नियुक्ति प्रधान मंत्री के कार्यकाल तक और उनके विवेकाधीन होगी।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

सं. ए-22012/004/2010-पीएमई--राष्ट्रपति, श्री धीरज कुमार श्रीवास्तव, आर.ए.एस. (1994) को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की अध्यक्ष के वैयक्तिक स्टाफ में 8,700/- रुपए के ग्रेड-पे के साथ पे-बैंड-4 (37,400--67,000/- रुपए) में सह-समाप्ति के आधार पर अध्यक्ष का निजी सचिव नियुक्त करती हैं।

2. यह नियुक्ति 15 जुलाई, 2010 (पूर्वाह्न) से दिनांक 4 जुलाई, 2011 तक अथवा अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक होगी।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2010

सं. आरएस-3/4/1/2010/66-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत वरिष्ठ निजी सचिव, श्रीमती अनुराधा शर्मा को 20 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 तथा 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ उप निदेशक (पीएसएस) के ग्रेड में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 23 जुलाई 2010

सं. आरएस/12/5/2010/67-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने कुमारी वियतनाम वी. की दिनांक 23 मई, 2010 से राज्य सभा सचिवालय में कनिष्ठ संसदीय भाषान्तरण के ग्रेड में पुष्टि कर दी है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 मई 2010

सं. पीएफ. 1519-आर(3)/जीएन-6417/एएन-1/2010--श्री आजम मियां, सुरक्षा अधिकारी [अब सहायक निदेशक (सुरक्षा)] की माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) के वैयक्तिक स्टाफ में 15,600--39,100/- रुपये (पी.बी.-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतनबैंड में अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में सह-विस्तारी/प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक 4.6.2009 के अपराह्न से उनकी सेवाएं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

राम राज राय, अपर निदेशक

दिनांक 26 मई 2010

सं. पीएफ. 1754-आर(3)/जीएन-6426/एएन-1/2010--श्री बी. पी. जैन, जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यरत हैं, को 26.5.2010 के अपराह्न से उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं उनके मूल विभाग अर्थात् कैबिनेट सचिवालय को वापस सौंपी जाती हैं।

2. श्री बी. पी. जैन की लोक सभा सचिवालय में वर्तमान प्रतिनियुक्ति-अवधि 27.12.2008 से 26.5.2010 तक बढ़ाई गई मानी जाएगी।

राम राज राय, अपर निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 मई 2010

सं. एफ. 15/12/2010/जीएन-6418/एएन-1--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के निबंधनों के अनुसार श्री ए. लुईस मार्टिन, संयुक्त सचिव को दिनांक 03.05.2010 से अगले आदेशों तक लोक सभा सचिवालय के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में अभिहित किया जाता है।

2. दिनांक 17.10.2007 की अधिसूचना सं. एफ. 15/25/2007/जीएन-5976/एएन-1 अधिक्रमित हो गई है।

एन. सी. गुप्ता, अपर निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 मई 2010

सं. पीएफ. 1215-आर(7)/जीएन-6419/एएन-1/2009--श्री राजीव कुमार सिक्का ने मुद्रण प्रबंधक के ग्रेड में परीक्षा-अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 नवंबर, 2007 की अधिसूचना सं. जीएन-1215-आर(3)/जीएन-5996/एएन-1/2007 के क्रम में है।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 6 मई 2010

सं. पीएफ. 154-आर(3)/जीएन-6420/एएन-1/2010--भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में 37,400--67,000/- रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 8,900/- रुपये के वेतन बैंड में निदेशक (विधि) के पद पर चयन होने के परिणामस्वरूप, डॉ. सत्यप्रकाश द्वारा उप सचिव के पद से दिए गए त्यागपत्र को 5 मई, 2010 के अपराह्न से स्वीकार कर लिया गया है और तत्पश्चात् उन्हें इस सचिवालय में उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाता है।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 7 मई 2010

सं. पीएफ. 15/09/2010/जीएन-6421/एएन-1--श्री एच. के. एल. डावर को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी.3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतनमान में लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक (श्री रमेश बैस) के वैयक्तिक स्टाफ में निजी सचिव के रूप में 3 जून, 2009 से अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है।

2. निजी सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति सेवावृत्ति के आधार पर तथा लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्य सचेतक के प्रसादपर्यन्त और उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. एफ. 15/25/2005/जीएन-6422/एएन-1--इस सचिवालय की दिनांक 15.06.2009 की अधिसूचना सं. 6245 के क्रम में, श्री इंदीवर पाण्डेय, आई ए एस (प. बंगाल : 88), जिन्होंने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आई आई पी ए), नई दिल्ली के 35वें एडवांस्ड प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (एपीपीपीए) को पूरा करने के पश्चात् लोक सभा सचिवालय में ड्यूटी के लिए 31 मार्च, 2010 को रिपोर्ट किया है, को 1 अप्रैल, 2010 से 14 मई, 2010 तक 44 दिन का परिणत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा 15 और 16 मई, 2010 को क्रमशः शनिवार और रविवार की छुट्टी होने के कारण अंत में जोड़ने की अनुमति दी जाती है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं उनके मूल संवर्ग अर्थात् पश्चिम बंगाल सरकार को वापस सौंपी जाती हैं।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 10 मई 2010

सं.पीएफ. 834-आर(2)/जीएन-6423/एएन-1/2010-- निम्नलिखित व्यक्तियों ने शोध/संदर्भ अधिकारी के ग्रेड में परीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है :-

1. श्री एच. सोखोलियाँ सिम्ते

2. श्री बैकुंठनाथ महापात्र

3. श्री राजेश्वर सिंह

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 नवंबर, 2007 की अधिसूचना सं. पीएफ. 834-आर(3)/जीएन-5992/एएन-1/2007 के क्रम में है।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 11 मई 2010

सं.पीएफ. 795-आर(3)/जीएन-6424/एएन-1/2010-- श्री सेबेस्टियन मैथ्यू द्वारा इस सचिवालय में संयुक्त निदेशक (लार्डिस) के पद से दिया गया त्यागपत्र 7 मई, 2010 के अपराह्न से स्वीकार कर लिया गया है।

2. श्री सेबेस्टियन मैथ्यू लोक सभा सचिवालय में की गई अपनी सेवाओं के फलस्वरूप प्रोद्भूत सभी अधिकार और विशेषाधिकार खो देंगे।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 21 मई 2010

सं. एफ. 15/13/जीएन-6425/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, दिनांक 27 अप्रैल, 2008 को हुई प्रारंभिक परीक्षा तथा दिनांक 23 अगस्त, 2008 से 28 अगस्त, 2008 तक हुई मुख्य परीक्षा एवं 15 नवंबर, 2008 को हुए वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर श्री सुमेश कुमार का लोक सभा सचिवालय में कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटेक्टॉल अधिकारी के पद पर चयन होने के परिणामस्वरूप, उन्हें 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटेक्टॉल अधिकारी के ग्रेड में, स्थानापन्न रूप में, 1 अप्रैल, 2010 के पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करती है।

2. वह 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2012 तक की दो वर्ष की लिए परीक्षाधीन रहेंगे।

3. कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटेक्टॉल अधिकारी के ग्रेड में उनकी परस्पर-वरिष्ठता 20 दिसंबर, 2003 के आर एंड सी. एस. आदेश सं. पी डी ए-1076/2003 के निबंधनों के अनुसार विनियमित होगी।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 31 मई 2010

सं.पीएफ. 1526-आर(3)/जीएन-6427/एएन-1/2010-- अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री धनसिंह, सुरक्षा अधिकारी 31 मई, 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं.पीएफ. 1324-आर(3)/जीएन-6428/एएन-1/2010-- अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री रतन लाल रैना, संयुक्त निदेशक (अनुवाद) 31 मई, 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं.पीएफ. 122-आर(3)/जीएन-6429/एएन-1/2010-- अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री बसुदेव के. गुप्ता, उप सचिव 31 मई, 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 1 जून 2010

सं. एफ. 15/13/2009/जीएन-6430/एएन-1--कोयला और इस्पात संबंधी समिति के सभापति (श्री कल्याण बनर्जी) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव, सुश्री विम्वी कुमारी की सेवाएँ 1 मई, 2010 के अपराह्न से समाप्त हो गई हैं।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 2 जून 2010

सं. पीएफ. 08 आर(3)/जीएन-6431/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 37,400—67,000/- रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 10,000/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत संयुक्त सचिव, श्री एस. बालशेखर को 67,000—79,000/- रुपये के एचएजी वेतनमान में अपर सचिव के रूप में 1 जून, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती है।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 7 जून 2010

सं. पीएफ. 25-आर(3)/जीएन-6432/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 37,400—67,000/- रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 8,700/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत निदेशक, श्री वी. आर. रमेश को 37,400—67,000/- रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 10,000/- रुपये के वेतन बैंड में संयुक्त सचिव के ग्रेड में 5 जून, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती है।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 9 जून 2010

सं. पीएफ. 760-आर(3)/जीएन-6433/एएन-1/2010--15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत अपर निदेशक (लार्डिस), डा. रूप नारायण दास को 9 जून, 2010 के अपराह्न से इस सचिवालय में उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) में वरिष्ठ अध्येता के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर दो वर्ष

की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति हेतु उनकी सेवाएं रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) को सौंपी जाती हैं।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 16 जून 2010

सं. एफ. 15/13/2010/जीएन-6434/एएन-1--श्री प्रदीप कुमार जैन, मुख्य कार्यकारी सचिव, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, जिन्हें वित्त संबंधी समिति के सभापति के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति/सह-विस्तारी आधार पर नियुक्त किया गया था, लोक लेखा समिति के सभापति (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर लोक लेखा समिति के वर्तमान सभापति के प्रसाद-पर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी आधार पर 1 मई, 2010 से कार्य करते रहेंगे।

2. उनका पदनाम लोक लेखा समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. एफ. 15/13/2010/जीएन-6435/एएन-1--सर्वश्री गजेन्द्र शर्मा और नारायण गम्भीर, जिन्हें क्रमशः विदेशी मामलों संबंधी समिति के सभापति तथा रसायन और उर्वरक संबंधी समिति के सभापति के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, क्रमशः वित्त संबंधी समिति के सभापति (श्री यशवन्त सिन्हा) और विदेशी मामलों संबंधी समिति के सभापति (श्री अनंत कुमार) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में सेवाधृति आधार पर और संबंधित समिति के वर्तमान सभापति के प्रसाद पर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी आधार पर 7 मई, 2010 से कार्य करते रहेंगे।

2. उनका पदनाम संबंधित समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ. 23/8/2010/जीएन-6436/एएन-1--अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत संयुक्त निदेशक (अनुवाद), श्री उमेश चन्द्र पंत को 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/- रुपये के वेतन बैंड में अपर निदेशक (अनुवाद) के ग्रेड में 15 जून, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ. 23/8/2010/जीएन-6437/एएन-1--अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित संपादकों को 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3)

+ ग्रेड पे 7,600/- रुपये के वेतन बैंड में संयुक्त निदेशक (अनुवाद) के ग्रेड में 15 जून, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं :--

1. श्री एच. सी. जैन
2. श्रीमती उर्वशी वर्मा
3. श्री बी. एस. चौहान

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 30 जून 2010

सं. पीएफ. 35-आर(3)/जीएन-6438/एएन-1/2010--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री आर. एस. मिश्र, निदेशक 30 जून, 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ. 748-आर(3)/जीएन-6439/एएन-1/2010--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री प्रैंक क्रिस्टोफर, निदेशक (लार्डिस) 30 जून, 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ. 1489-आर(3)/जीएन-6440/एएन-1/2010--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री पन्नालाल, अपर निदेशक (सुरक्षा) 30 जून, 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2010

सं. ए-32013/1/2010-प्रशा.-V/IV--राष्ट्रपति, योजना आयोग के नियमित सहायक (सीएसएस), श्री वी. के. वली को इस आयोग में रुपए 9,300--34,800 + 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन के पे बैंड-2 में अनुभाग अधिकारी (सीएसएस) के रूप में कार्यभार देखने के लिए 01.07.2010 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर या नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करती हैं।

2. तदर्थ नियुक्ति उपरोक्त वर्णित अधिकारी को अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमन हेतु कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी न तदर्थ नियुक्ति ग्रेड में वरिष्ठता हेतु गिनी जाएगी।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 14 जुलाई 2010

सं. ए-32013/1/2010-प्रशा.-V/IV--राष्ट्रपति, योजना आयोग के नियमित सहायक (सीएसएस), श्री मंशा राम को इस आयोग में रुपए 9,300--34,800 + 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन के पे बैंड-2 में

अनुभाग अधिकारी (सीएसएस) के रूप में कार्यभार देखने के लिए 18.06.2010 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर या नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ नियुक्ति उपरोक्त वर्णित अधिकारी को अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमन हेतु कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी न तदर्थ नियुक्ति की अवधि की ग्रेड में वरिष्ठता हेतु गणना की जाएगी।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2010

सं. ए-43011/06/2009-प्रशा.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग दिनांक 26 मई, 2010 और 1 जुलाई, 2010 के का. जा. सं. 5/3/2010-सीएस-I (यू) के अनुसरण में, राष्ट्रपति जी, श्री अरुण कुमार, सीएसएस (सीएसएस संख्या 6493) के नियमित अनुभाग अधिकारी को तदर्थ आधार पर योजना आयोग में दिनांक 02.07.2010 (पूर्वाह्न) से अवर सचिव (सीएसएस के ग्रेड-I) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 9 जुलाई 2010

सं. एफ-6(2075)/2008-प्रशा.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 25 जून, 2010 के संप्रेषण सं. 9/24/2010-ईओ (एसएम-I) के अनुसरण में श्री अरुण कुमार मिश्रा, भा.प्र.से. (उ.प्र. : 76) ने सचिव, पेयजल विभाग और स्वच्छता, ग्रामीण विकास मंत्रालय, के रूप में अपना नया कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 1 जुलाई, 2010 अपराह्न से योजना आयोग में प्रधान सलाहकार का कार्यभार त्याग दिया है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2010

सं. ए-12026/7/2004-प्रशा.-I (वि.वि.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खंड में कार्यरत श्री रवि कुमार वर्मा, उप विधायी परामर्शी (हिन्दी) को विधि और न्याय मंत्रालय के कथित खंड में दिनांक 19 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक, तीन माह की अवधि के लिए रुपए 37,400--67,000/- के वेतन बैंड तथा रुपए 8,700/- के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर अपर विधायी परामर्शी (हिन्दी) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री रवि कुमार वर्मा को अपर विधायी परामर्शी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एम. आर. बीर, उप सचिव

दिनांक 21 जुलाई 2010

सं. ए-12025(i)/1/2007-प्रशा.-I (वि.वि.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में उप विधायी परामर्शी श्री एन. आर. बट्टू को विधि और न्याय मंत्रालय के उक्त विभाग में अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-II) के पद पर रुपए 37,400--67,000/- के वेतन बैंड + रुपए 8,700/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 21 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए और अगले आदेशों तक, तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री एन. आर. बट्टू को अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-II) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एम. आर. बीर, उप सचिव

दिनांक 22 जुलाई 2010

सं. ए-12026/12/2001-प्रशा.-I (वि.वि.) (ii)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में अधीक्षक (विधि) के पद पर कार्यरत श्री आर. एस. जयकृष्णन को, विधि और न्याय मंत्रालय के राजभाषा खंड में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए सहायक विधायी परामर्शी (मलयालम) के पद पर रुपए 15,600--39,100/- के वेतन बैंड + रुपए 6,600/- के ग्रेड वेतन में, दिनांक 21 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से छः माह की अवधि के लिए और अगले आदेशों तक, तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री आर. एस. जयकृष्णन को सहायक विधायी परामर्शी (मलयालम) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एम. आर. बीर, उप सचिव

सं. ए-12026/12/2001-प्रशा.-I (वि.वि.) (i)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में गोपनीय अधीक्षक के पद पर कार्यरत श्री मोहम्मद हुसैन को विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए सहायक विधायी परामर्शी (पंजाबी) के पद पर रुपए 15,600--39,100/- के वेतन बैंड + रुपए 6,600/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 21 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से छः माह की अवधि के लिए और अगले आदेशों तक, तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री मोहम्मद हुसैन को सहायक विधायी परामर्शी (पंजाबी) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एम. आर. बीर, उप सचिव

सं. ए-12025/1/2007-प्रशा.-I(वि.वि.)--श्री के. वी. कुमार, सहायक विधायी परामर्शी, जिन्हें विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में तदर्थ आधार पर, दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के पद पर नियुक्त किया गया था, को दिनांक 19 जुलाई, 2010 के अपराह्न से उनके सहायक विधायी परामर्शी के मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

एम. आर. बीर, उप सचिव

सं. ए-12025/1/2007-प्रशा.-I(वि.वि.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में सहायक विधायी परामर्शी श्री के. वी. कुमार को विधि और न्याय मंत्रालय के उक्त विभाग में उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के पद पर रुपए 15,600--39,100/- के वेतन बैंड + रुपए 7,600/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 21 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए और अगले आदेशों तक, तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री के. वी. कुमार को उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एम. आर. बीर, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2010

सं. ए-32014/01/2007-प्रशा.(वि.का.)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01 जून, 2010 के का. ज्ञा. सं. 5/13/2009-सीएस-II (अ) के अनुसार जोनिंग योजना अन्तर्गत, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड क और ख विलयित आशुलिपिकों की वर्ष 2007 की चयन सूची में समावेश के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में तदर्थ आधार पर ग्रेड क और ख विलयित आशुलिपिक के रूप में कार्यरत, श्री कृष्ण पंजवानी, नियमित ग्रेड ग आशुलिपिक को इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड क और ख विलयित आशुलिपिक पद पर रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 व ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में दिनांक 15 जुलाई, 2010 (अपराह्न) से नियुक्त करते हैं।

2. श्री कृष्ण पंजवानी की ग्रेड क और ख विलयित आशुलिपिक पद पर नियुक्ति दिनांक 15 जुलाई, 2010 (अपराह्न) से दो वर्ष के लिए परीक्षण आधार पर होगी।

आशा सोय, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. ए-32013/6/2007-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को ग्रेड-I अधिकारी

(अवर सचिव) के रूप में गृह मंत्रालय में पीबी-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/- में पूर्णतः तदर्थ आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से 31.05.2011 तक अथवा पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा :--

क्र. सं.	नाम	गृह मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
	सर्वश्री	
1.	मनोज कुमार गुप्ता	31.05.2010 (पूर्वाह्न)
2.	अग्नि कुमार दास	01.06.2010 (पूर्वाह्न)
3.	सुरेन्द्र सिंह	02.06.2010 (पूर्वाह्न)
4.	सत्य नारायण गर्ग	03.06.2010 (पूर्वाह्न)
5.	मोलय सान्याल	03.06.2010 (पूर्वाह्न)
6.	श्रीमती साधना हीरानंदानी	04.06.2010 (अपराह्न)
7.	महेश पाल सिंह	07.06.2010 (पूर्वाह्न)
8.	अशोक कुमार बवालिया	07.06.2010 (पूर्वाह्न)
9.	संजय कुमार	07.06.2010 (पूर्वाह्न)
10.	जितेन्द्र पाल सिंह	07.06.2010 (पूर्वाह्न)
11.	पाण्डे प्रदीप कुमार	07.06.2010 (पूर्वाह्न)
12.	सुशील इक्का	07.06.2010 (पूर्वाह्न)
13.	श्रीमती सुमन दीक्षित	07.06.2010 (पूर्वाह्न)
14.	रजनीश कवात्रा	07.06.2010 (पूर्वाह्न)
15.	नलिनी रंजन सिंह	08.06.2010 (पूर्वाह्न)
16.	श्रीमती सुधांशु बाला नंदा	08.06.2010 (पूर्वाह्न)
17.	एस. आर. मोना	11.06.2010 (पूर्वाह्न)
18.	श्रीमती सरोजनी रावत	15.06.2010 (पूर्वाह्न)
19.	सरोज कुमार परीदा	23.06.2010 (पूर्वाह्न)
20.	देवाशीष हलदर	23.06.2010 (पूर्वाह्न)
21.	जी. पनीर सेलवम	24.06.2010 (पूर्वाह्न)
22.	प्रेम टी. एन.	05.07.2010 (पूर्वाह्न)
23.	योगेन्द्र प्रसाद ओझा	15.07.2010 (पूर्वाह्न)

2. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :--

- तदर्थ पदोन्नति अनिश्चित काल तक ग्रेड में निरंतर बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सी.एस.एस. के ग्रेड-I में वरिष्ठता के दावे का अधिकार प्रदान नहीं करती।
- तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

- (iii) उपर्युक्त नियुक्ति आदेश माननीय कैट, नई दिल्ली में लंबित शीर्षक श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ के ओ. ए. सं. 3294/2009 और शीर्षक श्री पी. एस. भंडारी बनाम भारत संघ तथा अन्य के ओ. ए. सं. 2674/2009 के अंतिम फैसले के अध्यक्षीन होगी।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2010

सं. 13017/06/2007 अ.भा.से.(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, श्री सुखबीर सिंह सन्धू, भा.प्र.से. (उत्तराखण्ड : 88) को उत्तराखण्ड संवर्ग से पंजाब संवर्ग में अन्तर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति को जुलाई 2010 से आगे दो महीने अर्थात् सितम्बर 2010 तक के लिए एक विशेष मामले के रूप में बढ़ाने का अनुमोदन देती है।

आर. के. गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 2010

सं. 14015/21/2009-अ.भा.से.(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2009 हेतु राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत तमिलनाडु के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोट शक्तियों को भरने के लिए, 26 मई, 2010 को विनियम 5(5) के अंतर्गत तैयार की गई तथा 12 जुलाई, 2010 को विनियम 7(2) के अंतर्गत अनुमोदित की गई निम्नलिखित नामों वाली तमिलनाडु राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन सूची को अधिसूचित करती है :-

चयन सूची 2009

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1	2	3
(सर्वश्री)		
1.	के. महाराधुषणम (अ.जा.)	10.06.1957
2.	वी. सम्पत	11.05.1966
3.	सी. एन. माहेश्वरन	05.08.1965
4.	टी. मुनुसामी (अ.जा.)	02.05.1955
5.	एस. सिवाशन्मुगाराजा (अ.जा.)	10.11.1964
6.	बी. महेश्वरी	07.01.1969

1	2	3
(सर्वश्री)		
7.	वी. अमुथवल्ली	10.05.1967
8.	के. एस. पलनीसामी	15.07.1968
9.	एम. मदिवानन (अ.जा.)	10.05.1963
10.	जे. जयकांथन	24.06.1967
11.	के. भास्करन	13.04.1962
12.	वी. शांता	01.03.1963
13.	एम. करुणाकरण	18.06.1963
14.	एस. नटराजन (अ.जा.)	06.03.1964
15.	वी. राजारामन	07.06.1967
16.	के. नागराजन (अ.जा.)	02.07.1958
17.	सी. टी. मणिमेकलई (अ.जा.)	24.01.1955
18.	डॉ. आर. सेल्वराज	25.05.1969
19.	आर. लिल्ली	02.04.1973

2. उपर्युक्त चयन सूची में उपर्युक्त अधिकारियों को शामिल किया जाना माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु के समक्ष लम्बित भारत सरकार और बैच द्वारा दायर रिट याचिका सं. 1803-1806/2010(एस-सीएटी) के परिणाम के अध्यक्षीन है। श्री ए. के. अन्नामलाई के संबंध में चयन समिति की सिफारिशों वाला मुहरबंद लिफाफे को रिट याचिका सं. 26673/2009 के निपटन के पश्चात् ही खोला जाना है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/21/2009-अ.भा.से.(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2009 हेतु राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित शक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में तमिलनाडु राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को अगले आदेशों तक, परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत तमिलनाडु के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में उनका आबंटन करती है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
1	2
(सर्वश्री)	
1.	के. महाराधुषणम (अ.जा.)
2.	वी. सम्पत

1	2
---	---

- (सर्वश्री)
3. सी. एन. माहेश्वरन
 4. टी. मुनुसामी (अ.जा.)
 5. एस. सिवाशन्मुगाराजा (अ.जा.)
 6. बी. महेश्वरी
 7. वी. अनुधवल्ली
 8. के. एस. पलनीसामी
 9. एम. मदिवानन (अ.जा.)
 10. जे. जयकांथन
 11. के. भास्करण
 12. वी. शांता
 13. एम. करुणाकरण
 14. एस. नटराजन (अ.जा.)
 15. बी. राजारामन
 16. के. नागराजन (अ.जा.)
 17. सी. टी. मणिमेकलई (अ.जा.)
 18. डॉ. आर. सेल्वराज
 19. आर. लिल्ली

2. उपर्युक्त चयन सूची में उपर्युक्त अधिकारियों को शामिल किया जाना माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु के समक्ष लम्बित भारत सरकार और बैंच द्वारा दायर रिट याचिका सं. 1803-1806/2010(एस-सीएटी) के परिणाम के अध्यधीन है। श्री ए. के. अन्नामलाई के संबंध में चयन समिति की सिफारियों वाला मुहरबंद लिफाफे को रिट याचिका सं. 26673/2009 से निपटान के पश्चात् ही खोला जाना है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 जुलाई 2010

सं. ए-19014/04/2006-प्र. सु. (प्रशा.-1) -कर्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 मार्च, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/7/2008-सी एस-II द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के लिए वर्ष 2006 की चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, श्री पी. पी. प्रकाशन को निजी सचिव ग्रेड (पी पी एस के रूप में नामित) के पद पर दिनांक 17 मार्च 2010 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

बी. के. सिंह, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. 74 (फा. सं. 50/150/2008-प्रशा.1) -इस विभाग की वर्ष 2010 की पूर्व अधिसूचना सं. 20 के क्रम में राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वित्त संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों की तदर्थ नियुक्ति को राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति को 31 दिसम्बर 2010 तक की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो बढ़ाते हैं :-

क्र. सं.	नाम
	(सर्वश्री/श्री)
1.	अभिजीत प्रसाद
2.	अशोक कुमार
3.	श्रीमती बिमला शर्मा
4.	श्रीमती सी. के. चोपड़ा
5.	जगदीश कुमार
6.	श्रीमती कुमुद कपूर
7.	एम. एल. शर्मा
8.	मानवेन्द्र प्रताप
9.	श्रीमती मंजू चन्द्रा
10.	श्रीमती मंजूला शारदा
11.	एन. सी. इसरानी
12.	एन. के. सिन्हा
13.	श्रीमती नरेश बधवान
14.	एच. के. चौधरी
15.	आर. आर. गुप्ता
16.	एस. सी. शर्मा
17.	एस. एस. निर्वाण
18.	श्रीमती संतोष अरोड़ा
19.	श्रीमती सावित्री प्रताप
20.	सुरेश यादव
21.	वी. के. अटवाल

2. इस तदर्थ नियुक्ति से, उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरियता का दावा करने का कोई हक नहीं होगा।

बी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. 2/2010-(फा. सं. ए-15011/2/2007)-सीए-राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी श्री रणसिंह (आयकर-99024), संयुक्त आयकर आयुक्त, ग्वालियर को प्रतिनियुक्ति आधार पर सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक [तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985] के तहत मुम्बई कार्यालय में दिनांक 15 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, संयुक्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

विक्टर जेम्स, अवर सचिव

सं. 3/2010 (फा. सं. ए-15011/2/2007)-सीए-राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी श्री यू. के. सरदार (आयकर-99573), उप आयकर आयुक्त, कोलकाता-VIII को प्रतिनियुक्ति आधार पर सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक [तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985] के तहत कोलकाता कार्यालय में दिनांक 14 जुलाई, 2010 के अपराह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, संयुक्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

विक्टर जेम्स, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 जुलाई 2010

सं. पीएफजी (971)/10/प्रशा.-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 मई 2010 के आदेश संख्या 5/3/2010/सीएस-I (यू) के अनुसार, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारी, श्री जी वेंकट सुब्बय्या को कारपोरेट कार्य मंत्रालय में दिनांक 04 जून 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं। तदर्थ आधार पर उनकी नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 26 मई 2010 के आदेश संख्या 5/3/2010/सीएस-1 (यू) के द्वारा नियंत्रित होगी।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

सं. पीएफजी (972)/10/प्रशा.-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 5/3/2010/सीएस-2 (यू) दिनांक 26 मई 2010 के अनुसार राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारी, श्री आर के पांडे को 04 जून 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक पूर्णतः तदर्थ आधार पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय में के.स.से. के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं। यह तदर्थ नियुक्ति का. एवं प्र.वि.के आदेश संख्या 5/3/2010/सीएस-1 (यू) दिनांक 26 मई 2010 में अनुबद्ध निबंधनों एवं शर्तों द्वारा नियंत्रित होगी।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

सं. पीएफजी (973)/10/प्रशा.-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 मार्च 2010 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के. सं. आशु. से. के अधिकारी श्री नंद किशोर को 01 जून 2010 के पूर्वाह्न से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में के. स. आशु. से. के प्रधान वैयक्तिक सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 21 जुलाई 2010

सं. पीएफजी (975)/10/प्रशा.-1--संयुक्त सीमित विभागीय परीक्षा, 2005 तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/2/2009 सीएसआई दिनांक 08 जुलाई 2010 द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में नामित करने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, श्रीमती शालिनी जुनेजा को दिनांक 16 जुलाई 2010 पूर्वाह्न से रुपये 9,300--34,800/- के पे बैंड-2 में रुपये 4,800/- के ग्रेड पे के साथ कारपोरेट कार्य मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. पीएफजी (977)/10/प्रशा.-1--राष्ट्रपति, मुख्य लागत सलाहकार, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 13 जुलाई 2010 के कार्यालय आदेश संख्या ए-22012/2/2009-सीएसी के अनुसार नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी (एनपीपीए) से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में स्थानांतरण के फलस्वरूप, श्री राजीव वधावन, भारतीय लागत लेखापरीक्षा सेवा को कारपोरेट कार्य मंत्रालय में पी.बी-3 में रुपये 15,600--39,100/- + रु. 6,600/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में दिनांक 26 जुलाई 2010 (अपराह्न) से उप-निदेशक (लागत) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2010

सं. ए-12023/1/2009-ई-II--राष्ट्रपति द्वारा वस्त्र मंत्रालय में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव श्री एम. सी. शर्मा को दिनांक 1 जुलाई, 2010 से वेतन बैंड 37,400--67,000/- + रु. 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ नियमित आधार पर सी. एस. एस. के प्रधान स्टाफ अधिकारी (पी.एस.ओ.) के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है।

एस. के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2010

सं. ए-4/8/2010-एसईजेड--राष्ट्रपति द्वारा श्री वी. भास्कर राय, सहायक को दिनांक 10.05.2010 से अगले आदेश होने तक 4,600/- रुपये के ग्रेड

वेतन के साथ 9,300--34,800/- रुपये के वेतनमान में विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन, विशाखापत्तनम में अगले आदेशों तक सहायक विकास आयुक्त (समूह "ख" राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया गया है।

आर. के. पांडे, अवर सचिव

पूर्ति प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2010

सं. ए-32014/4/2010-संवर्ग--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 जून 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/6/2009-सी.एस.-1(एस.) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नीचे बताए गए नियमित सहायकों को उनके नामों के सामने दी गई तारीख से तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के नाते स्थापनापन रूप से नियुक्त करते हैं:-

क्र. सं.	नाम	श्रेणी	चयन सूची (सहायक)	प्रोन्नति की तारीख	तैनाती का स्थान
सर्वश्री					
1.	जी.डी. सुनेजा	सामान्य	चयन सूची-1993	08.07.2010 (पूर्वाह्न)	पू.नि.म.नि.
2.	के.एल. राणा	सामान्य	चयन सूची-1993	08.07.2010 (पूर्वाह्न)	सचिवालय
3.	अशोक कुमार शर्मा	सामान्य	चयन सूची-1993	08.07.2010 (पूर्वाह्न)	पू.नि.म.नि.
4.	एम.एस. सिन्हा अनु. जाति		चयन सूची-1993	08.07.2010 (पूर्वाह्न)	पू.नि.म.नि.
5.	वाई.पी. सिंह अनु. जाति		चयन सूची-1993	16.07.2010 (पूर्वाह्न)	पू.नि.म.नि.

2. तदर्थ प्रोन्नतियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी:-

- तदर्थ प्रोन्नति की अवधि दिनांक 31.12.2010 तक या नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक होगी।
- ये तदर्थ नियुक्तियां, नियुक्त अधिकारियों का उक्त वर्ग में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती।
- ये तदर्थ नियुक्तियां, अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरीयता कोटा या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियमित उम्मीदवार उपलब्ध होने तक जारी रहेगी। तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति के इन दोनों में से किसी भी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त न करने की दशा में, उन्हें उस तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा, जिस तारीख को नियमित अधिकारी (नियमित अनुभाग अधिकारी) उपलब्ध हो जाएंगे अर्थात् जिस तारीख से वे (नियमित अनुभाग अधिकारी) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उन्हें आवंटित संबंधित कैडर में कार्यभार संभाल लेंगे।

परमजीत सिंह, अवर सचिव

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2010

सं. ए-12022/02/2009-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री चैतन्य प्रसाद, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार:90) को 23 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से, 29.11.2012 तक अथवा अगले आदेशों तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. के. आहलूवालिया, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2010

सं. ए-19011/656/2004-स्थापना-I--औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संवर्ग में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (चयन सूची-2004), श्री एल. एन. बजाज का दिनांक 27 मई, 2010 को निधन हो गया है।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2010

सं. ए-12011/11/2006-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 जून, 2010 के का.ज्ञा. संख्या 5/8/2006-सी.एस. II के अनुसरण में, राष्ट्रपति, सी.एस.एस.एस. संवर्ग के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग पर धारित निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड 'सी' की निजी सचिव 'क तथा ख' (विलयित) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को 31.12.2010 तक या सी.एस.एस.एस. के श्रेणी 'ए तथा बी' (विलयित) के नियमित आशुलिपिकों की उपलब्धता होने तक, इसमें से जो कोई भी पहले हो, आगे बढ़ाती हैं:-

- श्री जे. के. टण्डन
- श्री भोज सिंह

2. उपरोक्त अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति का जारी रहना विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर है और उन्हें नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने हेतु या अनिश्चित काल के लिए श्रेणी में बने रहने या सी.एस.एस.एस. श्रेणी 'क तथा ख' (विलयित) (नि.स.) में वरिष्ठता का दावा करने हेतु कोई अधिकारी नहीं होगा।

अरूणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(औषध निर्माण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2010

सं. ए-32011/2/2010-स्थापना--राष्ट्रपति, द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों को उनके नामों के सामने दी गई तारीख से पीबी-3 (15,600-39,100/- रु.) + ग्रेड वेतन 6,600/- रु. में औषध निर्माण विभाग में 31.05.2011 तक अथवा इन

पदों पर नियमित आधार पर भर्ती होने तक, इनमें से जो भी पहले हो अथवा अगला आदेश होने तक तदर्थ आधार पर अवर सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1) के पद पर नियुक्त किया जाता है:--

क्र. सं. नाम	अवर सचिव के ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1. श्री अनिल जैन	31.05.2010 (अपराह्न)
2. श्री आलोक कुमार कर्ण	01.06.2010 (पूर्वाह्न)
3. श्री अजीत कुमार साह	04.06.2010 (अपराह्न)
4. श्री सीता राम मोणा	14.06.2010 (पूर्वाह्न)

2. इन अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन ओए सं. 3294/2009 शीर्षक श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ तथा ओए सं. 2674/2009 शीर्षक श्री पी.एस. भंडारी बनाम भारत संघ एवं अन्य में अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी।

3. तदर्थ आधार पर नियुक्ति से उक्त ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए प्रवरण सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा और उनकी यह नियुक्ति बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है।

एम. एल. सिडाना, अवर सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2010

सं. ए-18011/75/2006-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री शिवशंकर को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 जून, 2010 के का.ज्ञा. सं. 5/7/2010-सीएस.II (ए) के तहत उनका नाम वर्ष 2010 के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में प्रधान स्टाफ अधिकारी की चयन सूची में शामिल किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.07.2010 से नियमित आधार पर उन्हें प्रधान स्टाफ अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी.पी. मुरलीधरन, उप सचिव

दिनांक 9 जुलाई 2010

सं. ए-22011/1/2010-स्था. --राष्ट्रपति, श्री गौतम कुमार, जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के एक नियमित सहायक हैं, को 08 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से 31.12.2010 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन नियुक्त करते हैं:--

- तदर्थ पदोन्नति की अवधि 31.12.2010 तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।
- तदर्थ नियुक्ति से नियुक्त अधिकारी को ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों

की चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता हेतु दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

- तदर्थ नियुक्तियां तब तक जारी रहेंगी जब तक वरिष्ठता कोटा या सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एल.डी.सी.ई.) के माध्यम से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो जाते। उस स्थिति में तब तदर्थ नियुक्त अधिकारी उक्त दो श्रेणियों में से किसी में भी नियमित नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है तो वह ऐसे नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने पर इस विभाग द्वारा उस अधिकारी के संबंधित संवर्ग इकाई में उसके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से सहायक ग्रेड में वापस चले जाएंगे।

- संबंधित अधिकारी को सतर्कता की दृष्टि से उपयुक्त पाए जाने पर उनकी तदर्थ पदोन्नति की प्रभावी तारीख वह होगी जब से वह अपने स्वयं की संवर्ग इकाई में अनुभाग अधिकारी ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करते हैं।

पी. पी. मुरलीधरन, उप सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. ए-12011/5/2009-स्था. --राष्ट्रपति, श्री प्रशांत सीताराम लोखंडे, भा.प्रशा.सेवा (एजीएमयूटी : 2001) को 26 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से 15,600--39,100/- रुपए (पीबी-3) + 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) के निजी सचिव के रूप में 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक वे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के निजी सचिव के पद पर कार्यरत रहते हैं अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी सबसे पहले हो, नियुक्त करते हैं।

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 14 जुलाई, 2010

सं. ए-12023/02/08-प्रशा. 1(ए)--राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में निम्नलिखित सहायकों को 9,300--34,800/- रु. के पे बैंड जमा 4,800/- रु. के ग्रेड पे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में 12.07.2010 से 31.12.2010 तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

- श्री के.के. वर्मा, -- एस.एल. (1993) (सामान्य) सहायक, बायोटेक्नोलॉजी विभाग
- श्री अमित कुमार रावत, -- एस.एल. (1995) (अनु. जाति) डी.एस.आई.आर.

3. श्री बाबू लाल, -- एस.एल. (1996) (सामान्य)
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
4. श्री राज ब्रत आर्य, -- एस.एल. (1996) (अनु. जाति)
डी.एस.आई.आर.

2. यह तदर्थ पदोन्नति उसी ग्रेड में अनिश्चितकाल तक जारी रहने अथवा वयन सूची में नियमित नियुक्ति के लिए सम्मिलित किये जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता के दावे का अधिकार प्रदान नहीं करती।

लता गोपकुमार, अवर सचिव

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 2 जुलाई 2010

सं. ए-12011/05/2009-स्था. I--राष्ट्रपति, डॉ. संगीता महेश कस्तूरी को वेतन बैंड (पी.बी.)-3, 15,600/-39,100/- रुपए + 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन में इस विभाग में वैज्ञानिक 'डी' के पद पर 02 जुलाई, 2010 पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. वह अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा की अवधि को नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

3. बी. सी. सी. एस. (आर. पी.) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची के खण्ड-II, भाग-क के अनुसार, वेतन बैंड (पी.बी.)-3, में 21,900/- रुपए के साथ 7,600/- रुपए का ग्रेड वेतन प्राप्त करेंगी।

बीना ई. चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 5 जुलाई 2010

सं. ए-12011/05/2009-स्था. I--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को वेतन बैंड (पी.बी.)-3, 15,600/-39,100/- रुपए + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में इस विभाग में वैज्ञानिक 'सी' के पद पर उनके नाम के आगे दी गई तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	डॉ. कलईवाणी गणेशन	09.06.2010 (पूर्वाह्न)
2.	डॉ. ऋचा प्रोवर	25.06.2010 (पूर्वाह्न)
3.	डॉ. काकोली दे दासगुप्ता	30.06.2010 (अपराह्न)
4.	डॉ. अदनकी वम्सी कृष्णा	02.07.2010 (पूर्वाह्न)

2. वे अपनी-अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा की अवधि को नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

3. इनमें से प्रत्येक अधिकारी सी. सी. एस. (आर. पी.) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची के खण्ड-II, भाग-क के अनुसार, रु. 25,350/-

मूल वेतन अर्थात् वेतन बैंड में 18,750/- रुपए का वेतन तथा 6,600/- रुपए ग्रेड वेतन प्राप्त करेंगे।

बीना ई. चक्रवर्ती, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2010

सं. ए-31013/3/2007-सीएचएस-V--राष्ट्रपति, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर उप संवर्ग के निम्नलिखित विशेषज्ञ ग्रेड-II/ विशेषज्ञ ग्रेड-I अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के आगे दी गई तारीख से अधिष्ठायी रूप में नियुक्त करती हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख	पुष्टीकरण की तारीख
1	2	3	4
1.	डॉ. सुजाता शर्मा	22.04.1995	22.04.1996
2.	डॉ. (श्रीमती) अमीता गुप्ता	26.05.2000	26.05.2001
3.	डॉ. (श्रीमती) चारु बम्बा	27.09.2001	27.09.2002
4.	डॉ. ए. एल. जनार्दन	04.02.2002	04.02.2003
5.	डॉ. (श्रीमती) जे. के. कोहली	31.01.2002	31.01.2003
6.	डॉ. (श्रीमती) अल्का गुप्ता	17.10.2001	17.10.2002
7.	डॉ. संजीव सिंह	12.09.2001	12.09.2002
8.	डॉ. (श्रीमती) मीनाक्षी	12.06.2002	12.06.2003
9.	डॉ. सुशील गुरिया	13.01.2006	13.01.2007
10.	डॉ. निधि अग्रवाल	27.08.2007	27.08.2008
11.	डॉ. अनुभूति	03.07.2007	03.07.2008
12.	डॉ. रवि कुमार	01.02.2007	01.02.2008
13.	डॉ. रजनी सायजपाल	17.07.2007	17.07.2008
14.	डॉ. दिनेश सिंह चौहान	05.06.2007	05.06.2008
15.	डॉ. एच. एस. इस्सर	13.11.2002	13.11.2003
16.	डॉ. मिलिन्द आनंद उमरे	12.11.2001	12.11.2002
17.	डॉ. अशोक कुमार	24.11.1998	24.11.1999
18.	डॉ. राजीव कपूर	31.07.2001	31.07.2002
19.	डॉ. (श्रीमती) दलजीत कौर (अपराह्न)	21.07.2003	22.07.2004
20.	डॉ. एस. के. मांझी	22.05.2003	22.05.2004
21.	डॉ. प्रीति लाल	12.04.2007	12.04.2008
22.	डॉ. कादम्बरी बतरा	04.05.2007	04.05.2008

1	2	3	4	1	2	3	4
23.	डॉ. दीपक कुमार गुप्ता	11.05.2007	11.05.2008	52.	डॉ. (श्रीमती) सुरवीन घुम्न	26.09.2002	26.09.2003
24.	डॉ. (कृ.) कृष्णा विश्वास	05.06.2002	05.06.2003	53.	डॉ. (श्रीमती) एम. कृष्णामल	24.04.2002	24.04.2003
25.	डॉ. सर्वेश कुमार टण्डन	11.07.2003	11.07.2004	54.	डॉ. (श्रीमती) सुनीता यादव	25.10.2002	25.10.2003
26.	डॉ. सुमिता सालूजा	24.10.1991	24.10.1992	55.	डॉ. सुमन मीना	26.05.2007	26.05.2008
27.	डॉ. (श्रीमती) एम. आर. कुलकर्णी	15.07.1985	01.04.1988	56.	डॉ. ज्योत्सना सूरी	20.11.2006	20.11.2007
28.	डॉ. मोहसिन वाली	27.03.1986	01.04.1988	57.	डॉ. पूनम लाल	15.02.2007	15.02.2008
29.	डॉ. (श्रीमती) गीता कम्पनी	18.01.2002	18.01.2003	58.	डॉ. उपमा सक्सेना	21.11.2006	21.11.2007
30.	डॉ. शिव शंकर सिंह	05.10.2001	05.10.2002	59.	डॉ. पूनम कुमारी	26.12.2006	26.12.2007
31.	डॉ. (कृ.) उल्का काम्बले	12.11.2001	12.11.2002	60.	डॉ. ऊषा रानी	16.07.2007	16.07.2008
32.	डॉ. रवि पाठक (अपराह)	08.05.2003	09.05.2004	61.	डॉ. शैलजा रानी रंजन सिन्हा	06.06.2007	06.06.2008
33.	डॉ. (श्रीमती) मनीषा बी. ठाकुर	26.04.2003	26.04.2004	62.	डॉ. तरू दीवान	04.05.2007	04.05.2008
34.	डॉ. राम प्रताप सैनी	28.04.2003	28.04.2004	63.	डॉ. वी. राज शेखर	12.09.2007	12.09.2008
35.	डॉ. (कृ.) नगीना अग्रवाल	28.05.2003	28.05.2004	64.	डॉ. के. एम. काम्बले	17.11.1999	17.11.2000
36.	डॉ. रजनीश सिंह	27.06.2003	27.06.2004	65.	डॉ. सुमंत सिन्हा	08.01.2001	08.01.2002
37.	डॉ. मनीष कुमार	09.10.2003	09.10.2004	66.	डॉ. नवल भाटिया	06.02.2002	06.02.2003
38.	डॉ. एम. के. लाल	13.09.2005	13.09.2006	67.	डॉ. बी. पी. शर्मा	30.01.2003	30.01.2004
39.	डॉ. संजय ए. लकड़ा (अपराह)	31.10.2005	01.11.2006	68.	डॉ. विकास गुप्ता	01.08.2003	01.08.2004
40.	डॉ. अजय कुमार शर्मा	31.03.2003	31.03.2004	69.	डॉ. सुमित बत्रा	22.09.2003	22.09.2004
41.	डॉ. सुमिता चौधरी विवाहपूर्व भसीन	21.04.2007	21.04.2008	70.	डॉ. विवेक जे. पुसनाके	23.12.2003	23.12.2004
42.	डॉ. सरित चटर्जी	23.04.2007	23.04.2008	71.	डॉ. राहुल खरे	23.01.2007	23.01.2008
43.	डॉ. (श्रीमती) सुमति पुरलीधर	05.02.2002	05.02.2003	72.	डॉ. हितेश लाल	30.03.2007	30.03.2008
44.	डॉ. (श्रीमती) डिम्पल कसाना	27.03.2003	27.03.2003	73.	डॉ. स्कंध सिन्हा	11.06.2007	11.06.2008
45.	डॉ. (श्रीमती) मोनाक्षी	01.12.2006	01.12.2007	74.	डॉ. राजेन्द्र कुमार बेनीवाल	05.02.2007	05.02.2008
46.	डॉ. रोहित चावला	23.10.2007	23.10.2008	75.	डॉ. संजय चौधरी	03.05.2001	03.05.2002
47.	डॉ. सुरंजना मोहन्ती	26.09.2007	26.09.2008	76.	डॉ. (श्रीमती) रानी गेरा	30.09.2003	30.09.2004
48.	डॉ. नवीन कुमार गुप्ता	04.10.2007	04.10.2008	77.	डॉ. दिनेश कुमार	22.03.2002	22.03.2003
49.	डॉ. मोनिका चौधरी	28.09.2007	28.09.2008	78.	डॉ. अजय कुमार	24.03.2004	24.03.2005
50.	डॉ. शाम सुन्दर	30.03.1995	30.03.1996	79.	डॉ. संदीप कुमार	10.12.2003	10.12.2004
51.	डॉ. एन. के. गुप्ता	12.12.1997	12.12.1998	80.	डॉ. पी. के. देबाता	27.05.2005	27.05.2006
				81.	डॉ. रतन गुप्ता	29.01.2007	29.01.2008
				82.	डॉ. दीपक बग्गा	15.06.2001	15.06.2002
				83.	डॉ. (श्रीमती) अमिता सेन	18.05.2001	18.05.2002
				84.	डॉ. वी. पी. बनसोड	30.12.1988	30.12.1989

1	2	3	4
85.	डॉ. डी. एस. रावत	14.08.1996	14.08.1997
86.	डॉ. (श्रीमती) लीलावती डॉसन	11.04.2000	11.04.2001
87.	डॉ. संजय खन्ना	06.07.2000	06.07.2001
87.	डॉ. (श्रीमती) सीमा सेठी	12.03.2001	12.03.2002
89.	डॉ. (श्रीमती) मुकुल सिंह	28.05.2003	28.05.2004
90.	डॉ. (श्रीमती) नलिनी जायसवाल	22.09.2003	22.09.2004
91.	डॉ. बिनोद कुमार सिन्हा	16.07.2003	16.07.2004
92.	डॉ. (श्रीमती) पूनम	10.07.2003	10.07.2004
93.	डॉ. निरूपमा पैनीकर खान	14.12.2007	14.12.2008
94.	डॉ. चरणजीत आहलूवालिया	27.12.2007	27.12.2008
95.	डॉ. संगीता पाहूजा सिंधवानी	20.11.2007	20.11.2008
96.	डॉ. समीर सेठ	22.05.2008	22.05.2009
97.	डॉ. अलका	16.09.2008	16.09.2009
98.	डॉ. नीलम कुमारी	02.06.2008	02.06.2009
99.	डॉ. कृष्णा कुमार स्वर्णकार	14.03.2008	14.03.2009
100.	डॉ. (श्रीमती) एस. कुलश्रेष्ठ	28.09.1991	28.09.1992
101.	डॉ. अनिल कुमार गौर	09.07.2003	09.07.2004
102.	डॉ. ललित के. मखीजा	04.03.1998	04.03.1999
103.	डॉ. (श्रीमती) सुजाता साराभाई	06.05.2002	06.05.2003
104.	डॉ. एम. के. झा	06.05.2002	06.05.2003
105.	डॉ. सविता अरोड़ा	06.05.2002	06.05.2003
106.	डॉ. दीपक नन्दा	06.05.2002	06.05.2003
107.	डॉ. प्रभात श्रीवास्तव	21.10.2002	21.10.2003
108.	डॉ. एच. के. शर्मा	21.10.2002	21.10.2003
109.	डॉ. पंकज वर्मा	13.04.2007	13.04.2008
110.	डॉ. (श्रीमती) वीना गुप्ता	03.07.1992	03.07.1993
111.	डॉ. (श्रीमती) अर्चना	21.04.1992	21.04.1993
112.	डॉ. मुकुल सिन्हा	01.02.2002	01.02.2003
113.	डॉ. (श्रीमती) ए. प्रसाद	03.09.2001	03.09.2002
114.	डॉ. (श्रीमती) रचना जैन	28.02.2003	28.02.2004
115.	डॉ. (श्रीमती) नम्रता सचदेवा	16.10.2003	16.10.2004
116.	डॉ. सच्चिदानंद यादव	14.10.2003	14.10.2004

1	2	3	4
117.	डॉ. (श्रीमती) सरिता जिलोवा	21.01.2004	21.01.2005
118.	डॉ. (श्रीमती) कमल कांता विज	05.09.2001	05.09.2002
119.	डॉ. रूपी जामवाल	26.12.2006	26.12.2007
120.	डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा	22.05.2007	22.05.2008
121.	डॉ. शैफाली गुप्ता	14.11.2007	14.11.2008
122.	डॉ. (श्रीमती) नीति कपूर	27.05.2003	27.05.2004
123.	डॉ. कार्तिक सक्सेना	06.12.2007	06.12.2008
124.	डॉ. राजकुमार छेजारा	17.11.2007	17.11.2008
125.	डॉ. (श्रीमती) संतोष कुमारी	11.02.2003	11.02.2004
126.	डॉ. अतुल मोहन कोचर	30.04.2003	30.04.2004
127.	डॉ. सोमशेखर एन.	18.11.2005	18.11.2006
128.	डॉ. राजीव सूद	04.05.2000	04.05.2001
129.	डॉ. अनूप कुमार	07.05.2008	07.05.2009

पवन कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 26 जुलाई 2010

सं. ए-12025/180/2007 सी. एच. एस.-I- राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. राहुल गौतम को दिनांक 3 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में पे बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/- + 5,400/- रुपये ग्रेड वेतन) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. राहुल गौतम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. राहुल गौतम दो वर्षों के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

ओ. पी. शर्मा, अवर सचिव

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. ए-38012/2/09-स्था. I/आयुष--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप, डॉ. ईश्वर दास, उप सलाहकार (होम्योपैथी) आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 31 जुलाई, 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

चंद्र शेखर, अवर सचिव

दिनांक 2 अगस्त 2010

सं. ए-12025/1/2005-स्था. I (आयुष) (पार्ट)--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर आयुष विभाग में रु. 8,000-275-13,500/- + एनपीए (पीबी-3, जी. पी.-5,400/-) के वेतनमान में चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के पद पर नियुक्त होने के परिणामस्वरूप, डॉ. देवी रविन्द्रन ने 15.03.2010 को आयुष विभाग/सीजीएचएस (मुख्यालय) में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

चंद्र शेखर, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2010

सं. 12022/6/2003-स्था. I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.3.2010 के का.ज्ञा. सं. 5/2/2008-सी.एस.-II के तहत चयन सूची वर्ष-2005 के लिए सीएसएसएस के निजी सचिवों (प्रधान निजी सचिव के रूप में अभिनामित) की चयन सूची में उनके नामों को शामिल किये जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग के सीएसएसएस संवर्ग में निम्नलिखित नियमित आशुलिपिक ग्रेड "ए" तथा "बी" (सम्मिलित) को उसी विभाग में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव (पी.बी.-3, 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए) के पद पर नियुक्त करते हैं :--

1. सुशील कुमार कथुरिया
2. सतीश कुमार गुप्ता
3. वी. के. वर्मा
4. डी. डी. साधवानी
5. हरिन्द्र कुमार
6. राम सेवक

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 29 जून 2010

सं. 11013/1/2009-स्था. I--राष्ट्रपति, महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ लेखा अधिकारी श्री प्रताप भोसले को दिनांक 10.6.2010 के पूर्वाह्न से वेतन बैंड-3, 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 6,600/- रु. में माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 30 जून 2010

सं. 27-2878/1/2010-स्था. I--राष्ट्रपति, श्री संजीव चोपड़ा, भा.प्र.से. (पश्चिम बंगाल : 85) को कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैंड (पी.बी.-4) तथा 10,000/- रु.

के ग्रेड वेतन, में 30 जून, 2010 के पूर्वाह्न से 5 वर्षों के लिये या आगामी आदेशों तक, इसमें जो पहले हो, संयुक्त सचिव (राष्ट्रीय बागवानी मिशन) एवं मिशन निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. ए-15012/4/2010-प्रशासन-1--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर इस विभाग में कार्यरत श्री जी. हसन, मनिकफैन, संयुक्त आयुक्त 31 जुलाई, 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सुभाष चन्द खत्री, अवर सचिव

सं. ए-15012/1/2010-प्रशासन-1--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर इस विभाग में कार्यरत श्रीमती सावित्री बख्तियानी, निजी सचिव 31 जुलाई, 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सुभाष चन्द खत्री, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2010

सं. ए-19011/1/2010-स्थापना--राष्ट्रपति जी ने श्री हृषिकेश पांडा, भा.प्र.से. (ओआर : 79) को 26 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से पंचायती राज मंत्रालय में सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम में विद्यमान रिक्ति के विरुद्ध अपर सचिव नियुक्त किया है।

एल. हौकिप, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2010

सं. 2-5/2005-प्रशासन/के.हि.नि./भाषा-I--राष्ट्रपति, सहर्ष केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग की श्रीमती हेमलता, सहायक निदेशक को उसी कार्यालय में उप निदेशक (भाषा) के पद पर वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करते हैं।

के. पी. जे. जराल्ड, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2010

सं. ए-32013(1)/2009-स्थापना-III--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/7/2010-सी.एस.-II(ए) दिनांक 23.06.2010

के अनुसरण में राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग की वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव श्रीमती अपर्णा बोस को उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कैंडर में वेतन बैंड-4 (रु. 37,400 - 67,000/- + 8,700/- रु. ग्रेड वेतन) में 1.7.2010 से नियमित आधार पर प्रधान स्टाफ अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

संजय गुप्ता, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2010

सं. 3-2/2010-प्रशासन--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, ए.सी.सी. के दिनांक 10 जून, 2010 के आदेश सं. 4/9/2010-इ.ओ. (एस.एम.-1) के आधार पर राष्ट्रपति, सुश्री प्रीति मदान, आई.ई.एस. (81) को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 10,000/- रुपये ग्रेड पे सहित रुपये 37,400--67,000/- (पे-बैंड 4) के वेतनमान में 01 जुलाई, 2010 (पूर्वाह्न) से अथवा अगले आदेश के जारी होने की तारीख, जो भी पहले हो, से 5 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 21 जुलाई 2010

सं. 4-12/2010-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री आर. निहाल पेड्डिक को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में ग्रेड पे 5,400/- रुपये सहित 15,600--39,100/- रुपये (पे-बैंड 3) के वेतनमान में दिनांक 08 जुलाई, 2010 (पूर्वाह्न) से सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इसे, आर्थिक कार्य विभाग (आई.ई.एस. प्रभाग), वित्त मंत्रालय के दिनांक 03.05.2010 के आदेश सं 13016/4/2010-आई.ई.एस. के अनुपालन में जारी किया जाता है।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 26 जुलाई 2010

सं. 3-2/2010-प्रशासन--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, ए.सी.सी. के दिनांक 23 जून, 2010 के आदेश सं. 4/21/2010-इ.ओ. (एस.एम.-1) के आधार पर राष्ट्रपति, डॉ. साधना राजा, आई.ई.एस. (84) को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 10,000/- रुपये ग्रेड पे सहित रुपये 37,400 - 67,000/- (पे बैंड 4) के वेतनमान में 16 जुलाई, 2010 (पूर्वाह्न) से अथवा अगले आदेश के जारी होने की तारीख, जो भी पहले हो, से 5 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2010

सं. 6263/एनआईसी/2010-प्रशा. II--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री साई सम्भु जे (कर्मचारी कोड सं. 6263) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, केरल राज्य एकक, त्रिवेन्द्रम में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियरी ग्रेड "एस बी" के पद से त्याग-पत्र दिनांक 14 जुलाई, 2010 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप निदेशक (प्रशा. II)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. पी.एफ./2706/एनआईसी/2010-प्रशासन-I--श्रीमती अरुण चाबा, वैज्ञानिक-एफ (कर्मचारी कोड सं. 2706), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से दिनांक 31 जुलाई, 2010 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रही हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

सं. पी.एफ./538/एनआईसी/2010-प्रशासन-I--श्री तीरथ राम शर्मा, संयुक्त निदेशक (कर्मचारी कोड सं. 538), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से दिनांक 31 जुलाई, 2010 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 जून 2010

सं. 2-1/2005-प्रशा. (पार्ट)--श्री धर्मवीर यादव, जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर कनिष्ठ विश्लेषक के रूप में कार्यरत हैं, को 30.06.2010 (अपराह्न) से अनुभाग अधिकारी के उनके नियमित पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2010

सं. ईआरबी-1/2006/2/26--सुश्रीमती संगीता शर्मा, सहायक आर्थिक सलाहकार, रेलवे बोर्ड को 10.03.2010 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर

7,600/- रुपए के ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100/- रुपए के पे बैंड में उप आर्थिक सलाहकार, रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया है।

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2010/2/22--राष्ट्रपति जी, रेलवे बोर्ड को सचिवालय सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी श्री एम. एस. मेहरा को 11.03.2010 के पूर्वाह्न से उच्च प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नत होने पर 67,000--79,000/- रुपए के वेतनमान में सलाहकार (गोपनीय), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त करते हैं।

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. ए-22012/01/2008-स्था.--राष्ट्रपति, श्री अनुराग शर्मा, (सीएसएल सं. 6620) अनुभाग अधिकारी को पोत परिवहन मंत्रालय में पे बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- +ग्रेड वेतन रु. 6,600/- के वेतनमान में दिनांक 03 जून 2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, तदर्थ आधार पर अवर सचिव (सी. एस. एस. की श्रेणी-I) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति इन शर्तों पर की जाती है कि तदर्थ प्रोन्नति बिना सीमा के इस ग्रेड में जारी रहने अथवा नियमित नियुक्ति की चयन सूची में समावेश अथवा चयन श्रेणी में वरिष्ठता संबंधी दावा का अधिकार नहीं देती। तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय, बिना किसी कारण बताये, समाप्त की जा सकती है।

ए. एम. विजयन, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2010

सं. 12/2010, [फा. सं.-3/1/2009-स्था.-I (खंड-2)]--राष्ट्रपति, केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह 'क') सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारियों को, नियमित रूप से पदोन्नति पर, उसी सेवा में ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में, रुपये 18,400-500-22,400 के संशोधन पूर्व के वेतनमान में, उनके नाम के आगे दर्शायी तारीख से, अगले आदेश तक, नियुक्त करती हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
1.	श्री एल. ए. वी. नाथन	29.04.2010(पूर्वाह्न)
2.	श्री वाई. के. शर्मा	03.05.2010(पूर्वाह्न)

1	2	3
3.	श्री एस. के. श्रीवास्तव	31.03.2010(पूर्वाह्न)
4.	श्री भगत सिंह	29.06.2010(पूर्वाह्न)

के. राजप्पा, अवर सचिव

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. 247/2010 (फा. सं. 5/3/2007-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, श्री के. एस. रेजिमोन, आई. एस. एस. (98) को, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत, दिनांक 09 जुलाई 2010 के अपराह्न से, 15,600--39,100/-रु. के वेतनमान में, ग्रेड पे 7,600/-रु. के साथ, पे बैंड-3 में, चार वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले घटित हो, उप सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2010

सं. ए-12025/03/2009-प्रशा.-I-पीएचई--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसा किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, वर्तमान में तदर्थ आधार पर उप सलाहकार (पीएचई) के पद पर कार्यरत श्री एम. दीनदयालन एवं श्री विजय कुमार चौरसिया को केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन, शहरी विकास मंत्रालय में तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक पे-बैंड-3 (15,600--39,100/- +ग्रेड पे 7,600/- रु.) में नियमित आधार पर उप सलाहकार (पीएचई) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2010

सं. ए-32012/09/2009-आई. एस. एच.-II--राष्ट्रपति, श्री एम. आर. राजपूत को 12,000-375-16,500 रुपये के पूर्व-संशोधित वेतनमान में दिनांक 19 जुलाई 2010 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुंबई में निदेशक (औद्योगिक स्वास्थ्य) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुभाष चन्द, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 26th July 2010

No. A. 22017/1/2009-PME—The President is pleased to appoint Shri D. Balanujan, Principal Staff Officer of Central Secretariat Stenographers Service as Officer on Special Duty on the personal staff of Prime Minister in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of 1st July, 2010.

2. The appointment of Shri D. Balanujan, OSD on the personal staff of Prime Minister is co-terminus with the tenure of and at the discretion of the Prime Minister.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

The 27th July 2010

No. A-22012/004/2010-PME—The President is pleased to appoint Shri Dhiraj Kumar Srivastava, RAS (1994) as Private Secretary to Chairperson, National Advisory Council in the personal staff of Chairperson on co-terminus basis in PB-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay Rs. 8,700/-.

2. The appointment will be with effect from the forenoon of 15th July, 2010 and upto 04.07.2011 or until further orders whichever event takes place earlier.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 21st July 2010

No. RS.3/4/1/2010/66-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Anuradha Sharma, Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Deputy Director (PSS) on ad hoc basis in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- plus usual allowances as admissible under the rules, with effect from the forenoon of 20th July, 2010 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

The 23rd July 2010

No. RS.12/5/2010/67-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to confirm Kum. Vietnam V. in the grade of Junior Parliamentary Interpreter in the Rajya Sabha Secretariat with effect from 23rd May, 2010.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 3rd May 2010

No. PF.-1519-R(3)/GN-6417/AN-I/2010—The services of Shri Azam Mian, Security Officer [now Assistant Director (Security)] are placed at the disposal of Ministry of Human Resource Development for his appointment as Additional

Private Secretary in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- [PB-3] + Grade Pay Rs. 6,600/- on the personal staff of Hon'ble Minister of Human Resource Development (Shri Kapil Sibal) on co-terminus/deputation basis, w.e.f. the afternoon of 04.06.2009.

RAM RAJ RAI, Additional Dir.

The 26th May 2010

No. PF.-1754-R(3)/GN-6426/AN-I/2010—Shri B. P. Jain, who is presently working as Assistant Director (Technical) on deputation basis is relieved of his duties with effect from the afternoon of 26.05.2010 and thereafter, his services are placed back at the disposal of his parent department i.e. Cabinet Secretariat.

2. The existing tenure of deputation of Shri B. P. Jain in Lok Sabha Secretariat shall be deemed to have been extended with effect from 27.12.2008 upto 26.05.2010.

RAM RAJ RAI, Additional Dir.

New Delhi-110001, the 4th May 2010

No. F.-15/12/2010/GN-6418/AN-I—In terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri A. Louis Martin, Joint Secretary is designated as the Central Public Information Officer of the Lok Sabha Secretariat w.e.f. 03.05.2010 until further orders.

2. Notification No. F.-15/25/2007/GN-5976/AN-I dated 17.10.2007 stands superseded.

N. C. GUPTA, Additional Dir.

New Delhi-110001, the 5th May 2010

No. PF.-1215-R(7)/GN-6419/AN-I/2009—Shri Rajeev Kumar Sikka has satisfactorily completed the probation period in the grade of Manager of Printing.

2. This is in continuation of Notification No. GN-1215-R(3)/GN-5996/AN-I/2007 dated 27th November, 2007.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 6th May 2010

No. PF.-154-R(3)/GN-6420/AN-I/2010—Consequent upon his selection for the post of Director (Law) in Competition Commission of India in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) with Grade Pay of Rs. 8,900/-, the resignation tendered by Dr. Satya Prakash from the post of Deputy Secretary has been accepted with effect from the afternoon of 05th May, 2010 and thereafter he stands relieved of his duties in this Secretariat.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 7th May 2010

No. F-15/09/2010/GN-6421/AN-I—Shri H. K. L. Davar is appointed as Private Secretary in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- on the personal staff of Chief Whip of Bharatiya Janata Party in Lok Sabha (Shri Ramesh Bais) with effect from 03rd June, 2009 until further orders.

2. His appointment as Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of and co-terminus with the term of the present Chief Whip of Bharatiya Janata Party in the Lok Sabha.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. F-15/25/2005/GN-6422/AN-I—In continuation of this Secretariat Notification No. 6245 dated 15.06.2009, Shri Indavar Pandey, IAS (WB:88), who has reported for duty in Lok Sabha Secretariat on completion of 35th Advanced Professional Programme in Public Administration (APPPA) at Indian Institute of Public Administration (IIPA), New Delhi on 31st March, 2010, has been granted Commuted Leave for 44 days with effect from 01st April, 2010 to 14th May, 2010 with permission to suffix 15th and 16th May, 2010 being holidays on account of Saturday and Sunday respectively and thereafter his services are placed back at the disposal of his parent cadre viz., Government of West Bengal.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 10th May 2010

No. PF-834-R(2)/GN-6423/AN-I/2010—The following persons have satisfactorily completed the probation period in the grade of Research/Reference Officer:—

1. Shri H. Soikholian Simte
2. Shri Baikunthnath Mohapatra
3. Shri Rajeshwar Singh

2. This is in continuation of Notification No. PF. 834-R(3)/GN-5992/AN-I/2007 dated 27 November, 2007.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 11th May 2010

No. PF.795-R(3)/GN-6424/AN-I/2010—The resignation tendered by Shri Sebastian Mathew from the post of Joint Director (LARRDIS) in this Secretariat has been accepted with effect from the afternoon of 7th May, 2010.

2. Shri Sebastian Mathew will forfeit all rights and privileges accruing to him virtue of his services rendered in the Lok Sabha Secretariat.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 21st May 2010

No. F.15/13/GN-6425/AN-I/2010—Consequent upon his selection to the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in Lok Sabha Secretariat on the basis of Preliminary Examination held on 27th April, 2008, Main Examination held from 23rd August, 2008 to 28th August, 2008 and Personal Interview held on 15th November, 2008, the Speaker is pleased to appoint Shri Sumesh Kumar to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 5,400/- in an officiating capacity with effect from the forenoon of 1st April, 2010 until further orders.

2. He will be on probation for a period of two years with effect from 1st April, 2010 upto 31st March, 2012.

3. His inter-se seniority in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 31st May 2010

No. PF.1526-R(3)/GN-6427/AN-I/2010—On attaining the age of superannuation, Shri Dhan Singh, Security Officer has retired from service with effect from the afternoon of 31st May, 2010.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF.1324-R(3)/GN-6428/AN-I/2010—On attaining the age of superannuation, Shri Rattan Lal Raina, Joint Director (Translation) has retired from service with effect from the afternoon of 31.05.2010.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF.122-R(3)/GN-6429/AN-I/2010—On attaining the age of superannuation, Shri Basudeo K. Gupta, Deputy Secretary has retired from service with effect from the afternoon of 31st May 2010.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 1st June 2010

No. F.15/13/2009/GN-6430/AN-I/2010—The services of Ms. Vimmi Kumari, Senior Private Secretary on the personal staff of Chairman, Committee on Coal and Steel (Shri Kalyan Banerjee) stood terminated with effect from the afternoon of 1st May, 2010.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 2nd June 2010

No. PF.08-R(3)/GN-6431/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint Shri S. Bal Shekar, Joint Secretary in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) with Grade Pay of Rs. 10,000/- as Additional Secretary in the HAG scale of Rs. 67,000—79,000/- with effect from 01st June, 2010, until further orders.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 7th June 2010

No. PF.25-R(3)/GN-6432/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint Shri V. R. Ramesh, Director in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) with Grade Pay of Rs. 8,700/- to the grade of Joint Secretary in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) with Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from 5th June, 2010, until further orders.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 9th June 2010

No. PF.760-R(3)/GN-6433/AN-I/2010—Dr. Rupa Narayan Das, Additional Director (LARRDIS) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 8,000/- is relieved of his duties in the Secretariat with effect from the afternoon of 9th June, 2010 and thereafter his services are placed at the disposal of Institute of the Defence Studies and Analyses (IDSA) for his appointment as Senior Fellow in Institute of the Defence Studies and Analyses (IDSA) under Ministry of Defence on deputation basis for a period of two years or until further orders whichever is earlier.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 16th June 2010

No. F.15/13/2010/GN-6434/AN-I—Shri Pradeep Kumar Jain, Chief Executive Secretary of IIIT, Allahabad who was appointed as Senior Private Secretary on the Personal Staff of Chairman, Committee on Finance on deputation/co-terminus basis, will continue to work as Senior Private Secretary on the Personal Staff of Chairman, Committee on Public Accounts (Dr. Murli Manohar Joshi) with effect from 1st May, 2010 on deputation basis and during the pleasure of or co-terminus basis with the term of present Chairman, Committee on Public Accounts.

2. He will now be designated as Private Secretary to the Chairman, Committee on Public Accounts.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. F.15/13/2010/GN-6435/AN-I—S/Shri Gajender Sharma and Narayan Gambhir who were appointed as Senior Private Secretary on the Personal Staff of Chairman, Committee on

External Affairs and Chairman, Committee on Chemical and Fertilizers respectively, will continue to work as Senior Private Secretary on the Personal Staff of Chairman, Committee on Finance (Sh. Yashwant Sinha) and Chairman, Committee on External Affairs (Shri Ananth Kumar) respectively with effect from 7th May, 2010 on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus basis with the term of present Chairman, of respective Committee.

2. They will be designated as Private Secretary to the Chairman of the respective Committee.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. F.23/8/2010/GN-6436/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Sh. Umesh Chandra Pant, Joint Director (Translation) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 7,600/- to the Grade of Additional Director (Translation) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 8,000/- with effect from 15th June, 2010, until further orders.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. F.23/8/2010/GN-6437/AN-I—The Speaker is pleased to appoint the following Editors in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade of Rs. 6,600/- to the grade of Joint Director (Translation) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from 15th June, 2010, until further orders :—

1. Shri H. C. Jain
2. Smt. Urvashi Verma
3. Shri B. S. Chauhan

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 30th June 2010

No. PF.35R(3)/GN-6438/AN-I/2010—On attaining the age of superannuation, Shri R. S. Misra, Director has retired from service with effect from the afternoon of 30th June, 2010.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF.748-R(3)/GN-6439/AN-I/2010—On attaining the age of superannuation, Shri Frank Christopher, Director (LARRDIS) has retired from service with effect from the afternoon of 30th June, 2010.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF.1489-R(3)/GN-6440/AN-I/2010—On attaining the age of superannuation, Shri Panna Lal, Additional Director

(Security) has retired from service with effect from the afternoon of 30th June, 2010.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 7th July 2010

No. A-32013/1/2010-Admn.V/IV—The President is pleased to appoint Shri V. K. Vali, a regular Assistant (CSS), Planning Commission to officiate as Section Officer (CSS) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- in this Commission, on ad hoc basis with effect from 01.07.2010 (FN) or till regular Section Officer becomes available, whichever is earlier.

2. The ad hoc appointment will not confer upon the abovementioned officer any right for regularization in the grade of Section Officer nor will the ad hoc appointment count for seniority in the grade.

N. K. SHARMA, Under Secy.

The 14th July 2010

No. A-32013/1/2010-Admn.V/IV—The President is pleased to appoint Shri Mansha Ram, a regular Assistant (CSS), Planning Commission to officiate as Section Officer (CSS) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- in this Commission, on ad hoc basis with effect from 18.06.2010 (FN) or till regular Section Officer becomes available, whichever is earlier.

2. The ad hoc appointment will not confer upon the abovementioned officer any right for regularization in the grade of Section Officer nor will the ad hoc appointment count for seniority in the grade.

N. K. SHARMA, Under Secy.

The 6th July 2010

No. A-43011/06/2009-Admn.I—In pursuance of Department of Personnel & Training O. M. No. 5/3/2010-CS.I (U) dated 26th May, 2010 and 1st July, 2010, the President is pleased to appoint Shri Arun Kumar, a regular Section Officer of CSS (CSL No. 6493) as Under Secretary (Grade-I of CSS) on ad hoc basis in Planning Commission w.e.f. 02.07.2010 (FN).

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 9th July 2010

No. F.6(2075)/2008-Admn.I—In pursuance of Department of Personnel & Training Communication No. 9/24/2010-EO

(SM.I) dated 25th June, 2010 Shri Arun Kumar Misra, IAS (UP : 76) has relinquished charge as Principal Adviser in the Planning Commission w.e.f. the afternoon of 1st July, 2010 to take up his new assignment as Secretary, Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Rural Development.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 20th July 2010

No. A.12026/7/2004-Admn.I(L.D.)—The President is pleased to appoint Shri Ravi Kumar Verma, Deputy Legislative Counsel (Hindi) in the Official Language Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Additional Legislative Counsel Hindi in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- in the said Wing of the Legislative Department of Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of three months with effect from the forenoon of 19th July, 2010 and until further orders.

2. This ad hoc appointment will not bestow on Shri Ravi Kumar Verma any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Additional Legislative Counsel (Hindi) nor the ad hoc services rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

The 21st July 2010

No. A.12025(i)/1/2007-Admn.I(L.D.)—The President is pleased to appoint Shri N. R. Battu, Deputy Legislative Counsel in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Additional Legislative Counsel (Grade-II of Indian Legal Service) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- in the said Department of Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of three months with effect from the forenoon of 21st July, 2010 and until further orders.

2. This ad hoc appointment will not bestow on Shri N. R. Battu any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Additional Legislative Counsel (Grade-II of ILS) nor the ad hoc services rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

The 22nd July 2010

No. A.12026/12/2001-Admn.I(L.D.)(ii)—The President is pleased to appoint Shri R. S. Jayakrishnan, Superintendent

(Legal) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to officiate as Assistant Legislative Counsel (Malayalam) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Official Languages Wing of Legislative Department, Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of six months with effect from the forenoon of 21st July, 2010 and until further orders.

2. This ad hoc appointment will not bestow on Shri R. S. Jayakrishnan any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Assistant Legislative Counsel (Malayalam) nor the ad hoc services rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

No. A-12026/12/2001-Admn.I(L.D.)(i)—The President is pleased to appoint Shri Mohd. Hussain working as Confidential Superintendent in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to officiate as Assistant Legislative Counsel (Punjabi) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Official Languages Wing of Legislative Department, Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of six months with effect from the forenoon of 21st July, 2010 and until further orders.

2. This ad hoc appointment will not bestow on Shri Mohd. Hussain any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Assistant Legislative Counsel (Punjabi) nor the ad hoc services rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

No. A-12025/1/2007-Admn.I(L.D.)—Shri K. V. Kumar, Assistant Legislative Counsel who was appointed to the post of Deputy Legislative Counsel (Grade-III of Indian Legal Service) on ad hoc basis in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice for a period of three months with effect from the forenoon of 20th April, 2010 stands reverted to his substantive post of Assistant Legislative Counsel with effect from the afternoon of 19th July, 2010.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

No. A-12025/1/2007-Admn.I(L.D.)—The President is pleased to appoint Shri K. V. Kumar, Assistant Legislative Counsel in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Deputy Legislative Counsel (Grade-III of Indian Legal Service) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- in the said Department of Ministry of Law and Justice on ad hoc

basis for a period of three months with effect from the forenoon of 21st July, 2010 and until further orders.

2. This ad hoc appointment will not bestow on Shri K. V. Kumar any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Deputy Legislative Counsel (Grade-III of ILS) nor the ad hoc services rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 30th July 2010

No. A-32014/1/2007-Admn.IV(LA)—Consequent upon inclusion in the Select List for the year 2007 of Steno Grade 'A&B' (merged) of CSSS under zoning scheme vide Department of Personnel & Training O.M. No. 5/13/2009-CS.II(A) dated 1st June, 2010, the President is pleased to appoint Shri Krishan Panjwani, a regular Steno Grade 'C' working as ad hoc Steno Grade 'A&B' (merged) in CSSS cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure as Steno Grade 'A&B' (merged) in CSSS cadre of this Department in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- w.e.f. 15th July, 2010 (A/N).

2. The appointment of Shri Krishan Panjwani as Steno Grade 'A&B' (merged) will be on 'trial' basis for a period of two years w.e.f. 15th July, 2010 (A/N).

ASHA SOTA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th July 2010

No. A-32013/6/2007-Ad.I—The President is pleased to appoint the following Section Officers of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I (Under Secretary) in the Ministry of Home Affairs in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + GP Rs. 6,600/- purely on ad hoc basis with effect from the date mentioned against their names for a period upto 31.05.2011 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier or until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of joining MHA
1	2	3
(S/Shri/Smt.)		
1.	Manoj Kumar Gupta	31.05.2010 (FN)
2.	Agni Kumar Das	01.06.2010 (FN)
3.	Surender Singh	02.06.2010 (FN)
4.	Satya Narain Garg	03.06.2010 (FN)
5.	Moloy Sanyal	03.06.2010 (FN)
6.	Smt. Sadhna Hiranandani	04.06.2010 (AN)
7.	Mahesh Pal Singh	07.06.2010 (FN)

1	2	3
	S/Shri/Smt.	
8.	Ashok Kumar Bawalia	07.06.2010 (FN)
9.	Sanjay Kumar	07.06.2010 (FN)
10.	Jitender Pal Singh	07.06.2010 (FN)
11.	Pandey Pradeep Kumar	07.06.2010 (FN)
12.	Sushil Ekka	07.06.2010 (FN)
13.	Smt. Suman Dixit	07.06.2010 (FN)
14.	Rajnish Kwatra	07.06.2010 (FN)
15.	Nalini Ranjan Singh	08.06.2010 (FN)
16.	Smt. Sudhanshu Bala Nanda	08.06.2010 (FN)
17.	S. R. Meena	11.06.2010 (FN)
18.	Smt. Sarojini Rawat	15.06.2010 (FN)
19.	Saroj Kumar Parida	23.06.2010 (FN)
20.	Debashish Halder	23.06.2010 (FN)
21.	G. Panneer Selvam	24.06.2010 (FN)
22.	Prem T. N.	05.07.2010 (FN)
23.	Yogendra Prasad Ojha	15.07.2010 (FN)

2. The ad-hoc promotion is subject to the following condition :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS.
- (ii) Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The aforesaid appointment shall further be subject to the final outcome in the OA. No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs. UOI and OA. No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari Vs. UOI & Ors. Pending before the CAT, New Delhi.

J. B. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 29th July 2010

No. 13017/06.2007-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 the Central Govt. hereby accords approval for the extension of the inter cadre deputation of Shri Sukhbir Singh Sandhu, IAS (UK : 88) from Uttarakhand cadre to Punjab cadre by 2 months beyond July 2010 i.e. upto September, 2010 as a special case.

R. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 2nd August 2010

No. 14015/21/2009-AIS(I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service Officers of Tamil Nadu containing the following names prepared on 26th May, 2010 under Regulation 5(5) and approved on 12th July, 2010 under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Tamil Nadu under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2009 :—

SELECT LIST 2009

Sl. No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri/Smt.)	
1.	K. Maharabushanam (SC)	10.06.1957
2.	V. Sampath	11.05.1966
3.	C. N. Maheswaran	05.08.1965
4.	T. Munusamy (SC)	02.05.1955
5.	S. Sivashanmugaraja (SC)	10.11.1964
6.	B. Maheswari	07.01.1969
7.	V. Amuthavalli	10.05.1967
8.	K. S. Palanisami	15.07.1968
9.	M. Mathivanan (SC)	10.05.1963
10.	J. Jeyakanthan	24.06.1967
11.	K. Baskaran	13.04.1962
12.	V. Shantha	01.03.1963
13.	M. Karunakaran	18.06.1963
14.	S. Natarajan (SC)	06.03.1964
15.	V. Rajaraman	07.06.1970
16.	K. Nagarajan (SC)	02.07.1958
17.	C. T. Manimekalai (SC)	24.01.1955
18.	Dr. R. Selvaraj	25.05.1969
19.	R. Lilly	02.04.1973

2. The inclusion of the above officers in the said Select List is subject to the outcome of the Writ Petition No. 1803-1806/2010 (S-CAT) filed by Government of India and batch pending before the Hon'ble High Court of Karnataka at Bangalore. The sealed cover containing the recommendations of the Selection Committee in respect of Shri K. A. Anamalai is to be opened only after disposal of the Writ Petition No. 26673/2009.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/21/2009-AIS(I)-B—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Tamil Nadu to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2009 on probation until further orders and to allocate them to IAS Cadre of Tamil Nadu, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

Sl. No.	Name
	(S/Shri/Smt.)
1.	K. Maharabushanam (SC)
2.	V. Sampath
3.	C. N. Maheswaran
4.	T. Munusamy (SC)
5.	S. Sivashanmugaraja (SC)
6.	B. Maheswari
7.	V. Amuthavalli
8.	K. S. Palanisami
9.	M. Mathivanan (SC)
10.	J. Jeyakanthan
11.	K. Baskaran
12.	V. Shantha
13.	M. Karunakaran
14.	S. Natarajan (SC)
15.	V. Rajaraman
16.	K. Nagarajan (SC)
17.	C. T. Manimekalai (SC)
18.	Dr. R. Selvaraj
19.	R. Lilly

2. The appointment of the above officers in the said Select List is subject to the outcome of the Writ Petition No. 1803-1806/2010 (S-CAT) filed by Government of India and batch pending before the Hon'ble High Court of Karnataka at Bangalore. The sealed cover containing the recommendations of the Selection Committee in respect of Shri K. A. Anamalai is to be opened only after disposal of the Writ Petition No. 26673/2009.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES

New Delhi-110001, the 21st July 2010

No. A-19014/04/2006-AR(Ad. I)—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2006 for Central Secretariat Stenographers' Service (CSSS) vide Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 5/7/2008-CS-II dated 17th March, 2010, the President is pleased to appoint Shri P.P. Prakasan to the Private Secretary Grade (designated as PPS) on regular basis with effect from 17.03.2010.

B. K. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 27th July 2010

No. 74 : (F. No. 50/150/2008-Ad.I)—In continuation of this Department's earlier notification No. 20 of 2010, the President is pleased to extend the adhoc appointment of the following Assistants of Finance cadre of CSS as Section Officers (Ad-hoc) in the Department of Revenue for the period upto 31.12.2010 or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name
	(S/Shri/Smt.)
1.	Abhjit Prasad
2.	Ashok Kumar
3.	Mrs. Bimla Sharma
4.	Mrs. C. K. Chopra
5.	Jagdish Kumar
6.	Mrs. Kumud Kapur
7.	M. L. Sharma
8.	Manavendra Pratap
9.	Mrs. Manju Chandra
10.	Mrs. Manjula Sharda
11.	N. C. Israni
12.	N. K. Sinha
13.	Mrs. Naresh Badhan
14.	H. K. Choudhary
15.	R. R. Gupta
16.	S. C. Sharma
17.	S. S. Nirwan
18.	Mrs. Santosh Arora
19.	Mrs. Savitri Pratap
20.	Suresh Yadav
21.	V. K. Atwal

2. The adhoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 30th July 2010

No. 2/2010 F. No. A-15011/2/2007-CA—The President is pleased to appoint Sh. Ran Singh, IRS (I.T.-99024), Joint Commissioner of Income Tax, Gwalior as Joint Commissioner in the office of Competent Authority & Administrator, [Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985], Mumbai on deputation basis with effect from the forenoon of 15th July, 2010 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

VICTOR JAMES, Under Secy.

No. 3/2010 F. No. A-15011/2/2007-CA—The President is pleased to appoint Sh. U. K. Sardar, IRS (I.T.-99573), Deputy Commissioner of Income Tax, Kolkata-VIII as Joint Commissioner in the office of Competent Authority & Administrator, [Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985], Kolkata, on deputation basis with effect from the forenoon of 14th July, 2010 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

VICTOR JAMES, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 9th July 2010

No. PFG (971)/10-Ad.I—In terms of Department of Personnel and Training's Order No. 5/3/2010/CS-I(U) dated 26.05.2010, the President is pleased to appoint Shri G. Venkata Subbaiah, an officer of Central Secretariat Service (CSS) to the post of Under Secretary (Grade-I of CSS), in the Ministry of Corporate Affairs purely on an ad-hoc basis with effect from the forenoon of 04.06.2010 until further orders. The ad-hoc appointment shall be governed by the terms and conditions stipulated in the DoPT's Order No. 5/3/2010/CS-I(U) dated 26.05.2010.

J. S. GUPTA, Under Secy.

No. PFG (972)/10-Ad.I—In terms of Department of Personnel and Training's Order No. 5/3/2010/CS-I(U) dated 26.05.2010, the President is pleased to appoint Shri R. K. Pandey, an officer of Central Secretariat Service (CSS) to the post of Grade-I (Under Secretary) of CSS, in the Ministry of Corporate Affairs purely on an ad-hoc basis with effect from

the forenoon of 04.06.2010 until further orders. The ad-hoc appointment shall be governed by the terms and conditions stipulated in the DoPT's Order No. 5/3/2010/CS-I(U) dated 26.05.2010.

J. S. GUPTA, Under Secy.

No. PFG (971)/10-Ad.I—In terms of Department of Personnel and Training's Office memorandum dated 17.03.2010 the President is pleased to appoint Shri Nand Kishore, an officer of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) to the post of Principal Private Secretary of CSSS in the Ministry of Corporate Affairs with effect from the forenoon of 01.06.2010.

J. S. GUPTA, Under Secy.

The 21st July 2010

No. PFG(975)/10 AD.I—Consequent upon her qualifying the Combined Limited Departmental Examination, 2005 and nomination to the Ministry of Corporate Affairs by the Department of Personnel & Training vide their Office Memorandum No. 6/2/2009 CS.I dated 08.07.2010, the President is pleased to appoint Smt. Shalini Juneja as Section Officer of Central Secretariat Service in the Ministry of Corporate Affairs, in the Pay Band 2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of 16.07.2010.

J. S. GUPTA, Under Secy.

The 27th July 2010

No. PFG (977)/10-Ad.I—Consequent upon his transfer from National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) to the Ministry of Corporate Affairs in terms of Office of Chief Adviser Cost, Department of Expenditure, Ministry of Finance Office Order No. A-22012/2/2009-CAC dated 13.07.2010, the President is pleased to appoint Shri Rajiv Wadhawan, ICoAS, as Deputy Director (Cost) in PB-3, Rs. 15,600—39,100 + 6,600/- (GP) in the Ministry of Corporate Affairs w.e.f. 26.07.2010 (A/N).

J. S. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 23rd July 2010

No. A-12023/1/2009-E-II—The President is pleased to appoint Shri M. C. Sharma, Sr. PPS in the Ministry of Textiles to the grade of Principal Staff Officer (PSO) of CSSS on regular basis in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 8,700/- w.e.f. 1st July, 2010.

S. K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 26th July 2010

No. A-4/8/2010-SEZ—The President is pleased to appoint Shri V. Bhaskara Rao, Assistant Development Commissioner (Group 'B' Gazetted) in Visakhapatnam Special Economic Zone, Visakhapatnam in the Pay Scale of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- w.e.f. 10.05.2010 until further orders.

R. K. PANDEY, Under Secy.

SUPPLY DIVISION

New Delhi, the 22nd July 2010

No. A-32014/4/2010-Cadre—In pursuance to DOP&T's Office Memorandum No. 6/6/2009-CS.I(S) dated June 7, 2010, the President is pleased to appoint the following regular Assistants of CSS to officiate as Section Officer on ad hoc basis, with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Cate-gory	Select List (Assistant)	Date of promotion	Posting
	(S/Shri)				
1.	G. D. Suneja	Gen.	SL-1993	08.07.2010 (F/N)	DGS&D
2.	K. L. Rana	Gen.	SL-1993	08.07.2010 (F/N)	Secretariat
3.	Ashok Kumar Sharma	Gen.	SL-1993	08.07.2010 (F/N)	DGS&D
4.	M. S. Sinha	SC	SL-1993	08.07.2010 (F/N)	DGS&D
5.	Y. P. Singh	SC	SL-1993	16.07.2010 (F/N)	DGS&D

2. The ad hoc promotion is subject to following conditions :—

- (i) The period of ad hoc promotion would be up to 31.12.2010 or till the regular Section Officers are made available, whichever is earlier;
- (ii) The ad hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers Grade of CSS;
- (iii) Ad hoc appointments would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority Quota or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular officers from the date they (regular Section Officers) join duty in

their respective cadre units allotted to them by DOP&T.

PARMJIT SINGH, Under Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION

New Delhi, the 26th July 2010

No. A-12022/02/2009-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Chaitanya Prasad, IAS (BH : 90) as Joint Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry with effect from the afternoon of 23rd July, 2010, for a period upto 29.11.2012 or until further orders, whichever is earlier.

S. K. AHLUWALIA, Dy. Secy.

New Delhi-110107, the 23rd July 2010

No. A-19011/656/2004-E-I—Shri L. N. Bajaj, Senior Principal Private Secretary (Select List 2004) in the cadre of the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, expired on 27.05.2010.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 20th July 2010

No. A-12011/11/2006-Estt.—In terms of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/8/2006-CS.II dated 30th June, 2010, the President is pleased to extend the ad hoc appointment of the following Steno Grade 'C' as Private Secretary 'A&B' [merged] of CSSS borne on the Cadre of Ministry of Petroleum & Natural Gas for a further period upto 31.12.2010 or till regular Stenos Grade 'A&B' (merged) of CSSS become available, whichever is earlier :—

1. Shri J. K. Tandon
2. Shri Bhoj Singh

2. The continuation of ad hoc appointment of the above mentioned officers is purely on ad hoc basis and shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade 'A' & 'B' [merged] [PS] of CSSS.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS)

New Delhi, the 30th June 2010

No. A-32011/2/2010-Estt.—The President is pleased to appoint the following Regular Section Officers of CSS Cadre to the post of Under Secretary (Grade-I of CSS) on ad hoc basis for a period upto 31.05.2011 or till the posts

are filled up on regular basis, whichever is earlier or until further orders, in the Department of Pharmaceuticals in the PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP 6,600/- w.e.f. the date mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Date of appointment to the Grade of Under Secretary
1.	Shri Anil Jain	31.05.2010 (A/N)
2.	Shri Alok Kumar Karn	01.06.2010 (F/N)
3.	Shri Ajit Kumar Sah	04.06.2010 (A/N)
4.	Shri Sita Ram Meena	14.06.2010 (F/N)

2. The ad hoc promotion of these officers shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs. UOI and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari Vs. UOI & Ors. pending before the CAT, New Delhi.

3. The above ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of CSS and it may be terminated at any point of time without assigning any reason therefor.

M. L. SIDANA, Under Secy.

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 7th July 2010

No. A-18011/75/2006-Estt.—Consequent on the inclusion of his name in the Select List of Principal Staff Officer in Central Secretariat Stenographers' Service for the year 2010 by the Department of Personnel and Training vide their O.M. No. 5/7/2010-CS.II(A) dated 23rd June, 2010, the President is pleased to appoint Shri Shiv Shankar as Principal Staff Officer on regular basis with effect from 01.07.2010.

P. P. MURALIDHARAN, Dy. Secy.

The 9th July 2010

No. A-22011/1/2010-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Gautam Kumar, a regular Assistant of the CSS Cadre of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises as Section Officer on ad hoc basis in the CSS Cadre with effect from the forenoon of 8th July, 2010 till 31.12.2010 or till further orders, whichever is earlier, subject to the following conditions :—

- The period of ad hoc promotion would be upto 31.12.2010 or till the regular Section Officers are made available, whichever is earlier;
- The ad hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer Grade of CSS;

(iii) Ad hoc appointments would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority Quota or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular officers from the date they join duty in their respective cadre units allotted to them by this Department.

(iv) The effective date of ad hoc promotion in respect of those found fit and clear from vigilance angle would be the date from which the officer concerned joins duty in Section Officers' grade in his own cadre unit.

P. P. MURALIDHARAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 30th July 2009

No. A-12011/5/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Prashant Sitaram Lokhande, IAS (AGMUT : 2001) as Private Secretary to Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Shri Sharad Pawar) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with a Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of 26th July, 2010 for a period of five (5) years or till he ceases to function as Private Secretary to Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution or until further orders, whichever is the earliest.

PREMA BHATT, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 14th July 2010

No. A-12023/02/2008-Admn.I(A)—The President is pleased to appoint the following Assistants of CSS Cadre of Ministry of Science & Technology as Section Officers in the CSS Cadre of Ministry of Science & Technology in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- on ad hoc basis w.e.f. 12.07.2010 and upto 31.12.2010 or till regular Section Officers joins or until further orders, whichever is earlier :—

- Shri K. K. Verma, Assistant, DBT—SL 1993 (Gen.)
- Shri Amit Kumar Rawat, DSIR—SL 1995 (SC)
- Shri Babu Lal, DST—SL 1996 (Gen)
- Shri Raj Vrat Arya, DSIR—SL 1996 (SC)

2. The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade of C.S.

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

New Delhi-110003, the 2nd July 2010

No. A-120/05/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Sagita Mahesh Kasture, as Scientist 'D' in the Department, in the Pay Band PB-3 of Rs. 15,600–39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of 2nd July, 2010.

2. She will be on probation for a period of two years from the date of joining. The period of probation may be curtailed or extended at the discretion of the Appointing Authority.

3. She will draw her pay in the Pay Band PB-3 at Rs. 21,900/- plus Rs. 7,600/- as Grade Pay as per Section-II, Part-A of the First Schedule of the CCS (RP) Rules, 2008.

BEENA E. CHAKRAVARTY, Under Secy.

The 5th July 2010

No. A-1211/05/2009-Estt.—The President is pleased to appoint the following officials as Scientist 'C' in the Department, in the Pay Band PB-3, Rs. 15,600–39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the dates shown against their names :—

Sl. No.	Name(s)	Date of Appointment
1.	Dr. Kalaivani Ganesan	09.06.2010 (Forenoon)
2.	Dr. Richa Grover	25.06.2010 (Forenoon)
3.	Dr. Kakali Dey Dasgupta	30.06.2010 (Afternoon)
4.	Dr. Addanki Vamsi Krishna	02.07.2010 (Forenoon)

2. They will be on probation for a period of two years from the respective dates of appointment. The period of probation may be curtailed or extended at the discretion of the Appointing Authority.

3. Each of them will draw a basic Pay of Rs. 25,350/- i.e. Rs. 18,750/- as Pay in Pay Band plus Rs. 6,600/- as Grade Pay, in accordance with the Section-II, Part-A of the First Schedule to the CCS (RP) Rules, 2008.

BEENA E. CHAKRAVARTY, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 29th July 2010

No. A-31013/3/2007-CHS-V—The President is pleased to appoint substantively the following Specialist Gr.-II/Specialist

Gr.-I of Non-Teaching sub-cadre of the Central Health Service, with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Appointment	Date of Confirmation
1	2	3	4
1.	Dr. Sujata Sharma	22.04.1995	22.04.1996
2.	Dr. (Smt.) Ameeta Gupta	26.05.2000	26.05.2001
3.	Dr. (Smt.) Charu Bamba	27.09.2001	27.09.2002
4.	Dr. A. L. Janardhan	04.02.2002	04.02.2003
5.	Dr. (Smt.) J. K. Kohli	31.01.2002	31.01.2003
6.	Dr. (Smt.) Alka Gupta	17.10.2001	17.10.2002
7.	Dr. Sanjiv Singh	12.09.2001	12.09.2002
8.	Dr. (Smt.) Meenakshi	12.06.2002	12.06.2003
9.	Dr. Sushil Guria	13.01.2006	13.01.2007
10.	Dr. Nidhi Agarwal	27.08.2007	27.08.2008
11.	Dr. Anubhuti	03.07.2007	03.07.2008
12.	Dr. Ravi Kumar	01.02.2007	01.02.2008
13.	Dr. Rajni Sajpal	17.07.2007	17.07.2008
14.	Dr. Dinesh Singh Chauhan	05.06.2007	05.06.2008
15.	Dr. H. S. Isser	13.11.2002	13.11.2003
16.	Dr. Millind Anand Umre	12.11.2001	12.11.2002
17.	Dr. Ashok Kumar	24.11.1998	24.11.1999
18.	Dr. Rajeev Kapoor	31.07.2001	31.07.2002
19.	Dr. (Smt.) Daljeet Kaur	21.07.2003 (AN)	22.07.2004
20.	Dr. S. K. Manjhi	22.05.2003	22.05.2004
21.	Dr. Priti Lal	12.04.2007	12.04.2008
22.	Dr. Kadambari Batra	04.05.2007	04.05.2008
23.	Dr. Deepak Kumar Gupta	11.05.2007	11.05.2008
24.	Dr. (Km.) Krishna Biswas	05.06.2002	05.06.2003
25.	Dr. Sarvesh Kumar Tandon	11.07.2003	11.07.2004
26.	Dr. Sumita Saluja	24.10.1991	24.10.1992
27.	Dr. (Smt.) M. R. Kulkarni	15.07.1985	01.04.1988
28.	Dr. Mohsin Wali	27.03.1986	01.04.1988
29.	Dr. (Smt.) Geeta Kampani	18.01.2002	18.01.2003
30.	Dr. Shiv Shankar Singh	05.10.2001	05.10.2002
31.	Dr. (Km.) Ulka Kamble	12.11.2001	12.11.2002
32.	Dr. Ravi Pathak	08.05.2003 (AN)	09.05.2004
33.	Dr. (Smt.) Manisha B. Thakur	26.04.2003	26.04.2004
34.	Dr. Ram Pratap Saini	28.04.2003	28.04.2004
35.	Dr. (Km.) Nagina Agarwal	28.05.2003	28.05.2004
36.	Dr. Rajnish Singh	27.06.2003	27.06.2004
37.	Dr. Manish Kumar	09.10.2003	09.10.2004
38.	Dr. M. K. Lal	13.09.2005	13.09.2006

1	2	3	4
39.	Dr. Sanjay A. Lakra	31.10.2005 (AN)	01.11.2006
40.	Dr. Ajay Kumar Sharma	31.03.2003	31.03.2004
41.	Dr. Sumita Chaudhary Nee Bhasin	21.04.2007	21.04.2008
42.	Dr. Sarit Chatterjee	23.04.2007	23.04.2008
43.	Dr. (Smt.) Sumathi Muralidhar	05.02.2002	05.02.2003
44.	Dr. (Smt.) Dimple Kasana	27.03.2002	27.03.2003
45.	Dr. (Mrs.) Meenakshi	01.12.2006	01.12.2007
46.	Dr. Rohit Chawla	23.10.2007	23.10.2008
47.	Dr. Suranjana Mohanty	26.09.2007	26.09.2008
48.	Dr. Naveen Kumar Gupta	04.10.2007	04.10.2008
49.	Dr. Monica Chaudhary	28.09.2007	28.09.2008
50.	Dr. Sham Sunder	30.03.1995	30.03.1996
51.	Dr. N. K. Gupta	12.12.1997	12.12.1998
52.	Dr. (Smt.) Surveen Ghumman	26.09.2002	26.09.2003
53.	Dr. (Smt.) M. Krishnammal	24.04.2002	24.04.2003
54.	Dr. (Smt.) Sunita Yadav	25.10.2002	25.10.2003
55.	Dr. Suman Meena	26.05.2007	26.05.2008
56.	Dr. Jyotsna Suri	20.11.2006	20.11.2007
57.	Dr. Poonam Laul	15.02.2007	15.02.2008
58.	Dr. Upma Saxena	21.11.2006	21.11.2007
59.	Dr. Poonam Kumari	26.12.2006	26.12.2007
60.	Dr. Usha Rani	16.07.2007	16.07.2008
61.	Dr. Shailja Rani Ranjan Sinha	06.06.2007	06.06.2008
62.	Dr. Taru Dewan	04.05.2007	04.05.2008
63.	Dr. V. Raj Shekhar	12.09.2007	12.09.2008
64.	Dr. K. M. Kamble	17.11.1999	17.11.2000
65.	Dr. Sumant Sinha	08.01.2001	08.01.2002
66.	Dr. Naval Bhatia	06.02.2002	06.02.2003
67.	Dr. B. P. Sharma	30.01.2003	30.01.2004
68.	Dr. Vikas Gupta	01.08.2003	01.08.2004
69.	Dr. Sunit Batra	22.09.2003	22.09.2004
70.	Dr. Vivek J. Pushnake	23.12.2003	23.12.2004
71.	Dr. Rahul Khare	23.01.2007	23.01.2008
72.	Dr. Hitesh Lal	30.03.2007	30.03.2008
73.	Dr. Skand Sinha	11.06.2007	11.06.2008
74.	Dr. Rajendra Kumar Beniwal	05.02.2007	05.02.2008
75.	Dr. Sanjay Choudhary	03.05.2001	03.05.2002
76.	Dr. (Smt.) Rani Gera	30.09.2003	30.09.2004
77.	Dr. Dinesh Kumar	22.03.2002	22.03.2003
78.	Dr. Ajay Kumar	24.03.2004	24.03.2005

1	2	3	4
79.	Dr. Sandeep Kumar	10.12.2003	10.12.2004
80.	Dr. P. K. Debata	27.05.2005	27.05.2006
81.	Dr. Ratan Gupta	29.01.2007	29.01.2008
82.	Dr. Deepak Bagga	15.06.2001	15.06.2002
83.	Dr. (Smt.) Amita Sen	18.05.2001	18.05.2002
84.	Dr. V. P. Bansod	30.12.1988	30.12.1989
85.	Dr. D. S. Rawat	14.08.1996	14.08.1997
86.	Dr. (Smt.) Leelavathi Dawson	11.04.2000	11.04.2001
87.	Dr. Sanjay Khanna	06.07.2000	06.07.2001
88.	Dr. (Smt.) Seema Sethi	12.03.2001	12.03.2002
89.	Dr. (Smt.) Mukul Singh	28.05.2003	28.05.2004
90.	Dr. (Smt.) Nalini Jaiswal	22.09.2003	22.09.2004
91.	Dr. Binod Kumar Sinha	16.07.2003	16.07.2004
92.	Dr. (Smt.) Poonam	10.07.2003	10.07.2004
93.	Dr. Nirupama Panicker Khan	14.12.2007	14.12.2008
94.	Dr. Charanjit Ahluwalia	27.12.2007	27.12.2008
95.	Dr. Sangeeta Pahuja Sindhvani	20.11.2007	20.11.2008
96.	Dr. Sameer Saith	22.05.2008	22.05.2009
97.	Dr. Alka	16.09.2008	16.09.2009
98.	Dr. Neelam Kumari	02.06.2008	02.06.2009
99.	Dr. Krishna Kumar Swarnkar	14.03.2008	14.03.2009
100.	Dr. (Smt.) S. Kulshreshtha	28.09.1991	28.09.1992
101.	Dr. Anil Kumar Gaur	09.07.2003	09.07.2004
102.	Dr. Lalit K. Makhija	04.03.1998	04.03.1999
103.	Dr. (Smt.) Sujata Sarabahi	06.05.2002	06.05.2003
104.	Dr. M. K. Jha	06.05.2002	06.05.2003
105.	Dr. Savita Arora	06.05.2002	06.05.2003
106.	Dr. Deepak Nanda	06.05.2002	06.05.2003
107.	Dr. Prabhat Shrivastava	21.10.2002	21.10.2003
108.	Dr. H. K. Sharma	21.10.2002	21.10.2003
109.	Dr. Pankaj Verma	13.04.2007	13.04.2008
110.	Dr. (Smt.) Veena Gupta	03.07.1992	03.07.1993
111.	Dr. (Smt.) Archana	21.04.1992	21.04.1993
112.	Dr. Mukul Sinha	01.02.2002	01.02.2003
113.	Dr. (Smt.) A. Prasad	03.09.2001	03.09.2002
114.	Dr. (Smt.) Rachna Jain	28.02.2003	28.02.2004
115.	Dr. (Smt.) Namrita Sachdev	16.10.2003	16.10.2004
116.	Dr. Sachchida Nand Yadav	14.10.2003	14.10.2004
117.	Dr. (Smt.) Sarita Jilowa	21.01.2004	21.01.2005
118.	Dr. (Smt.) Kamal Kanta Vig	05.09.2001	05.09.2002
119.	Dr. Rupj Jamwal	26.12.2006	26.12.2007

1	2	3	4
20.	Dr. Rajinder Kumar Mishra	22.05.2007	22.05.2008
21.	Dr. Shefali Gupta	14.11.2007	14.11.2008
22.	Dr. (Smt.) Neeti Kapur	27.05.2003	27.05.2004
23.	Dr. Kartik Saxena	06.12.2007	06.12.2008
24.	Dr. Raj Kumar Chhejare	17.11.2007	17.11.2008
25.	Dr. (Smt.) Santosh Kumari	11.02.2003	11.02.2004
26.	Dr. Atul Mohan Kochhar	30.04.2003	30.04.2004
27.	Dr. Somashekar N.	18.11.2005	18.11.2006
28.	Dr. Rajiv Sood	04.05.2000	04.05.2001
29.	Dr. Anup Kumar	07.05.2008	07.05.2009

PAWAN KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH

New Delhi-110011, the 26th July 2010

No. A-12025/180/2007-CHS-I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rahul Gautam to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) in a temporary capacity with effect from forenoon of 3rd March, 2008 until further orders. Dr. Rahul Gautam is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi. Dr. Rahul Gautam shall be on probation for two years.

O. P. SHARMA, Under Secy.

DEPARTMENT OF AYUSH

New Delhi, the 30th July 2010

No. A-38012/2/09-E-I/AYUSH—On attaining the age of superannuation, Dr. Eswara Das, Deputy Adviser (Homoeo), Department of AYUSH, Ministry of Health & Family Welfare stands retired from the Government Service with effect from 31.07.2010 (AN).

CHANDRA SHEKHAR, Under Secy.

The 2nd August 2010

No. A-12025/1/2005-E-I (AYUSH) (Pt)—Consequent upon their appointment to the post of Medical Officer (Ayurveda) in the Department of AYUSH in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- + NPA (PB-3, GP Rs. 5,400/-) on the recommendation of UPSC Dr. Devi Ravindran, joined Department of AYUSH/CGHS(HQ) on 15th March, 2010.

CHANDRA SHEKHAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 11th May 2010

No. 12022/6/2003-E-I—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Private Secretaries (Designated as Principal Private Secretary) of CSSS for the Select List year 2005 vide Department of Personnel & Training O.M. No. 5/7/2008-CS-II dated 17.03.2010, the President is pleased to appoint the following regular Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS borne on the cadre of Department of Agriculture & Cooperation to the post of Principal Private Secretary (PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) on regular basis in the same Department :—

S/Shri

1. Sushil Kumar Kathuria
2. Satish Kumar Gupta
3. V. K. Verma
4. D. D. Sadhwani
5. Harinder Kumar
6. Ram Sewak

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 29th June 2010

No. 11013/1/2009-E/I The President is pleased to appoint Shri Pratap Bhosale, Sr. Accounts Officer in Government of Maharashtra as Additional Private Secretary to Hon'ble Agriculture Minister (Shri Sharad Pawar) w.e.f. the forenoon of 10.06.2010 in Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- Grade Pay Rs. 6,600/-.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 30th June 2010

No. 27-2878/2010-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Sanjeev Chopra, IAS (WB :85) as Joint Secretary (National Horticulture Mission) & Mission Director in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/-, for a period of five years w.e.f. the forenoon of 30th June, 2010 or until further orders, whichever event takes place earlier.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY,
DAIRYING AND FISHERIES

New Delhi, the 30th July 2010

No. A-15012/4/2010-Admn-I—On attaining the age of superannuation, Shri G. Hassan Manikfan, Joint Commissioner in this Department retires from Govt. Service with effect from the afternoon of 31st July, 2010.

SUBHASH CHAND KHATRI, Under Secy.

No. A-15012/4/2010-Admn-I—On attaining the age of superannuation, Smt. Savitri Bakhtiani, Private Secretary in this Department retires from Govt. Service with effect from the afternoon of 31st July, 2010.

SUBHASH CHAND KHATRI, Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi, the 26th July 2010

No. A-19011/4/2010-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Hrusikesh Panda, IAS (OR-79) as Additional Secretary in the Ministry of Panchayati Raj under Central Staffing Scheme against the existing vacancy with effect from the forenoon of 26th July, 2010.

L. HAOKIP, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 20th July 2010

No. 2-5/2005 Admn/CHD/Language-1—The President is pleased to appoint Smt. Hem Lata, Asstt. Director of Central Hindi Directorate to the Post of Deputy Director (Language) in the same office in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 6,600/- with effect from the date of assumption of charge of the post by her.

K. P. J. GEREALD, Under Secy.

New Delhi, the 21st July 2010

No. A-32013(1)2009-E-III—In pursuance Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/7/2010-CS-II(A) dated 23.06.2010, the President is pleased to appoint Smt. Aparna Bose, Sr. Principal Private Secretary belonging to CSSS Cadre of the Ministry of Human Resource Development as Principal Staff Officer in the Cadre of Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, in Pay Band-4 (R. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/-) on regular basis with effect from 1.07.2010.

SANJAY GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 20th July 2010

No. 3-2/2010-Admn—In pursuance DoPT, ACC's Order No. 4/9/2010-EO(SM.I) dated 10 June, 2010, the President is pleased to appoint Ms. Preeti Madan, IES (81) as Joint Secretary in the Ministry of Women & Child Development, in the in Pay Band of (Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay Rs. 10,000/-) for a period of five years, with effect from 1st July, 2010 (FN) or until further orders, whichever is the earlier.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

New Delhi, the 21st July 2010

No. 4-12/2010-Admn—The President is pleased to appoint Shri R. Nihal Pedric to the post of Assistant Director in the Ministry of Women and Child Development in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 08.07.2010 (Forenoon).

2. This issues in pursuance of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (IES Division) Order No. 13016/4/2010-IES dated 3.5.2010.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 26th July 2010

No. 3-2/2010-Admn—In pursuance DoPT, ACC's Order No. 4/21/2010-EO(SM.I) dated 23rd June, 2010, the President is pleased to appoint Dr. Sadhana Rout, IIS (84) as Joint Secretary in the Ministry of Women & Child Development, in the in Pay Band of (Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay Rs. 10,000/-) for a period of five years, with effect from 16th July, 2010 (FN) or until further orders, whichever events takes place earlier.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY) NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 28th July 2010

No. 6263/NIC/2010Adm.-II—Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Sh. Sai Sambhu J. (Em. Code No. 6263) from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. 'SB', NIC-Kerala State Centre, Trivandrum, with effect from the afternoon of 14 July, 2010 and he is releved of his duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Dy. Director (Adm.II).

New Delhi-110003, the 30 July 2010

No. PF/2706/NIC/2010Adm.-I—Smt. Aruna Chaba, Scientist-F (Emp. Code: 2706), National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 31 July, 2010 and she stands relieved of her duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (Adm.I).

No. PF/538/NIC/2010Adm.-I—Shri Tirth Ram Sharma, Joint Director (Emp. Code: 538), National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 31 July, 2010 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (Adm.I).

DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 30 June 2010

No. 2-1/2005Adm.(pt)—Shri Dharamvir Yadav working as Junior Analyst on deputation basis, is reverted to his regular post of Section Officer with effect from 30.06.2010(A/N).

BHAGWAN DAS, Asstt. Director General (Admn.)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 28th July 2010

No. ERB-I/2006/2/26—Ms. Sangeeta Sharma, Assistant Economic Adviser, Railway Board has been appointed as Deputy Economic Adviser, Railway Board in Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 7,600/- on ad hoc basis with effect from the forenoon of 10.03.2010.

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.,
(Railway Board)

No. ERB-I/2010/2/22—The President is pleased to appoint Shri M. S. Mehra, a Senior Administrative Grade officer of Railway Board Secretariat Service, as Adviser (Confidential), Railway Board on promotion to Higher Administrative Grade in the pay scale of Rs. 67,000—79,000/- with effect from the forenoon of 11.03.2010.

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.,
(Railway Board)

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi-110001, the 27th July

No. A-22012/1/2008-Estt.—The President is pleased to appoint, Shri Anurag Sharma, Section Officer (CSL No. 6620) as Under Secretary (Grade-I of CSS) on adhoc basis, in the Ministry of Shipping in the Pay Band 3: Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600 Grade Pay w.e.f. 03.06.2010 (FN), until further orders.

2. The appointment is subject to the conditions that the adhoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in Grade-I. The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

A. M. VIJAYAN, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 28th July 2010

No. 12/2010, File No. 3/1/2009-Estt. I (Vol. II)—The President is pleased to appoint the following Junior Administrative Grade officers of the Central Water Engineering (Group 'A') Service, on promotion, to the Senior

Administrative Grade of the same Service, on regular basis, in the pre-revised pay scale of Rs. 18,400-500-22,400, with effect from the dates mentioned against each and until further orders:—

S. No.	Name of the officer	Date of assumption of charge of the post
1.	Sh. L. A. V. Nathan	29.04.2010(F/N)
2.	Sh. Y. K. Sharma	03.05.2010(F/N)
3.	Sh. S. K. Srivastava	31.03.2010(F/N)
4.	Sh. Bhagat Singh	29.06.2010(F/N)

K. RAJAPPA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 27 July 2010

F. No. 247/2010 No. 5/3/2007-Admn.-II—The President is pleased to appoint Shri K. S. Rajimon, I.S.S. (98) as Deputy Secretary under Central Staffing Scheme in the Ministry of Information & Broadcasting in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- in Pay Band-3, with effect from the afternoon of 09.07.2010 for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier.

S. S. BEDI, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 21st July 2010

No. A-12025/3/2009-Admn.I/PHE—Consequent upon their being recommended by the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint S/Shri M. Dhinadhayalan and Vijai Kumar Chaurasia, presently working as Deputy Adviser (PHE) on adhoc basis to the post of Deputy Adviser (PHE) on regular basis in the Central Public Health and Environmental Engineering Organization, Ministry of Urban Development in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100 + Grade Pay Rs. 7,600) with immediate effect, until further orders.

JITENDER KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 29th July 2010

No. A-32012/09/2009-ISH. II—The President is pleased to appoint Shri M. R. Rajput to the post of Director (Industrial Hygiene) in the pre-revised pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Directorate General of Factory Advice Service & Labour Institutes, Mumbai, with effect from 19/07/2010 (F/N) and until further orders.

SUBHASH CHAND, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2010
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2010